



दिल्ली राजापत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]
No. 137]

दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2014/कार्तिक 5, 1936

[रा.रा.क्ष.दि. सं. 126

DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014/KARTIKA 5, 1936

[N.C.T.D. No. 126]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2014

सं.फा. 7(185)/12/डीओएफएस/प्रशा०/8258-67.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० 27/59—एवआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य सुरक्षा विभाग से संबंधित भर्ती नियमों की दिनांक 20 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या फा० 2(14)/78.सेवा-2, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-खाद्य विश्लेषक के पद के लिये भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिये अनुसूचि में नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा विभाग, उप-खाद्य विश्लेषक भर्ती नियमावली, 2014 कहा जायेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे बैंड, ग्रेड पे, तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा योग्यता इत्यादि :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :—ऐसा कोई भी व्यक्ति
 (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
 वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह गत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. बचावः— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे—बैंड तथा ग्रेड—पे/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप-खादय विशेषक	01* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड -2, 9300—34800/-रुपये +ग्रेड पे 4600/-रुपये)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : वेतन समूह-2 में 9300—34800/-रुपये + ग्रेड पे 4200/-रुपये के ग्रेड में नियमित के उपरान्त इसमें पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित कैमिस्ट। टिप्पणी— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	वर्ग 'ख' में विभागीय पदोन्नति समिति के नामित सदस्य हैं: 1. विकास आयुक्त, दिल्ली	लागू नहीं

		<p>ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिचेष्टा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>टिप्पणी—पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।</p>	<p>सरकार —अध्यक्ष</p> <p>2. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), दिल्ली सरकार —सदस्य</p> <p>3. अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य), दिल्ली सरकार — सदस्य</p>
--	--	---	---

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुषमा सिंह, उप—सचिव (स्वास्थ्य परिवर्तन कल्याण)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

NOTIFICATIONS

Delhi, the 27th October, 2014

No.F.7(185)/12/DoFS/Adminn./8258-67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, and in supersession of Notification No.F.2(14)/78-S.II dated the 20th February, 1984 of the recruitment rules, in so far as it relates to the post of Deputy Food Analyst in the Department of Food Safety, except as respects things done or omitted or to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Food Analyst in the Department Food Safety, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Food Safety, Deputy Food Analyst Recruitment Rules, 2014.

(ii) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay band and Grade Pay/Scale of Pay.**—The number of post, their classification and Pay band and Grade pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualification, etc. – The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications. – No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax. – Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Food Analyst.	One* (2014) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group B Gazetted Non-ministerial	Pay band-2 (Rs.9300-34800) plus Grade Pay Rs.4600/-	Selection.	Not applicable.	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion: Chemist with Five years service in the grade renders after appointment thereto on regular basis in PB-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs.4200/-	Group-'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Development Commissioner, Govt of NCT of Delhi - Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			<p>Note-1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half or such qualifying/eligibility services, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.</p> <p>Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st of January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p>	<p>2. Commissioner (Food Safety) Govt of NCT of Delhi - Member</p> <p>3. Additional Secretary (Health) Govt of NCT of Delhi – Member</p>	
--	--	--	--	--	--

By Order in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SUSHMA SINGH, Dy Secy. (H&FW)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सं. बीएचएस/20/2014-दिल्ली/4480.—दिल्ली: बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन दिल्ली द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की सूची जिनका नाम धारा-24 के अन्तर्गत रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है, की धारा-28 दिल्ली होम्योपैथिक एक्ट, 1956 के माध्यम से सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह सूची 01, अप्रैल, 2013 से 30, जुलाई, 2014 तक संवृद्धि है।

क्र. सं.	नाम व पता	पिता / पति का नाम	योग्यता	आयु	विलनिकल पता	रजिस्ट्रेशन सं. व तिथि
1.	डॉ. अनुराग पाण्डे, कमरा नम्बर-4 नेहरू होम्योपथिक मेडिकल कॉलेज बी-लॉक डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-24	पुत्र श्री राजेन्द्र पाण्डे	बीएचएमएस / 08 बी.आर.ए.वि. बिहार	29	कमरा नम्बर 4 नेहरू होम्योपथिक मेडिकल कॉलेज बी-लॉक डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-24	बीएचएसडी / 4579 14.05.2013
2.	डॉ. अमित कुमार, सी-63, गली न०-३, लकड़ी गली, नौर्थ छज्जुपुर शाहदरा, दिल्ली-94	पुत्र श्री विक्रम सिंह	बीएचएमएस / 08 बी.आर.ए.वि. बिहार	34	सी-63, गली न०-३, लकड़ी गली, नौर्थ छज्जुपुर शाहदरा, दिल्ली-94	बीएचएसडी / 4581 21.05.2013
3.	डॉ. अन्जली बिहानी, 192, जनता फ्लैट्स, पॉकेट-7, सैकटर-2 रोहिणी, दिल्ली-85	पुत्री श्री गोविन्द प्रसाद बिहानी	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	192, जनता फ्लैट्स, पॉकेट-7, सैकटर-2 रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी / 4585 21.05.2013
4.	डॉ. अविश्वास गुप्ता, आर.जेड-52, एफ / 3, राज नगर पार्ट-1, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45	पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	आर.जेड-52, एफ / 3, राज नगर पार्ट-1, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45	बीएचएसडी / 4593 22.05.2013
5.	डॉ. अलिया बागरी, हॉउस न०.24, तीसरी मंजिल, पॉकेट-9, सैकटर-21 रोहिणी, दिल्ली-86	पुत्री श्री भुपेन्द्र कुमार बागरी	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	हॉउस न०.24, तीसरी मंजिल, पॉकेट-9, सैकटर-21 रोहिणी, दिल्ली-86	बीएचएसडी / 4597 22.05.2013
6.	डॉ. अभय कुमार, आर.जेड-187 / 298, गली. न०-4, गीतांजली पार्क, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-46	पुत्र श्री ए. एल. प्रसाद	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	25	आर.जेड-187 / 298, गली. न०-4, गीतांजली पार्क, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-46	बीएचएसडी / 4603 22.05.2013
7.	डॉ. अन्नी जुलिट बारला, 20/3 सैकटर-1, पुष्प विहार, नई दिल्ली-17	पुत्री श्री विनसेन्ट बारला	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	20/3 सैकटर-1, पुष्प विहार नई दिल्ली-17	बीएचएसडी / 4611 23.05.2013
8.	डॉ. अराजा गन्नाल सी-2, 11-ए, ब्लॉक-सी2, केशव पुरम, दिल्ली-35	पुत्री श्री अरुण कुमार गांगल	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	सी-2, 11-ए, ब्लॉक-सी2, केशव पुरम, दिल्ली-35	बीएचएसडी / 4623 24.05.2013
9.	डॉ. अमित कुमार, बी-183 कोडली, दिल्ली-96	पुत्र श्री थान सिंह	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	बी-183 कोडली, दिल्ली-96	बीएचएसडी / 4629 24.05.2013
10.	डॉ. अमित अरोड़ा, एन-26, रजोरी गार्डन, नई दिल्ली-27	पुत्री श्री अरविन्द पाल सिंह	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	एन-26, रजोरी गार्डन, नई दिल्ली-27	बीएचएसडी / 4659 04.06.2013
11.	डॉ. आरती गोयल, आर-एस-12, पंजाबी बाजार, कोटला मुवारकपुर नई दिल्ली-03	पुत्री श्री गोरी शंकर गोयल	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	आर-एस-12, पंजाबी बाजार, कोटला मुवारकपुर नई दिल्ली-03	बीएचएसडी / 4663 04.06.2013
12.	डॉ. अल्का मोरया आर जेड 477ए/320, गली न०-7, गीतांजली पार्क वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-46	पुत्री श्री एस. बी. मोरया	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	आर जेड 477ए/320, गली न०-7, गीतांजली पार्क वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-46	बीएचएसडी / 4666 04.06.2013

13.	डॉ. आयुश मित्तल, सी-1138, टिकरी खानपुर, नई दिल्ली-62	पुत्र श्री उमेश कुमार भित्तल	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	सी-1138, टिकरी खानपुर, नई दिल्ली-62	बीएचएसडी / 4671 07.06.2013
14.	डॉ. आंचल, 23-बी, पॉकेट-3, डी.डी.ए एमआई, जी, पलैट मध्यूर विहार फेस-3, कोडली घराली, दिल्ली	पुत्री श्री सुरेश चन्द्र	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	23-बी, पॉकेट-3, डी.डी.ए एमआई, जी, पलैट मध्यूर विहार फेस-3, कोडली घराली, दिल्ली	बीएचएसडी / 4674 10.06.2013
15.	डॉ. अनुषा शर्मा, 4/840 गली न0-12, झारखण्डी मार्ग, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	पुत्री श्री के० डौ० शर्मा	बीएचएमएस / 09 राज. आयू० वि.	27	4/840 गली न0-12. झारखण्डी मार्ग, भोलानाथ नगर शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएसडी / 4686 04.07.2013
16.	डॉ. आरती घिमान, ई-96, चान्दा पेलैस-1, जनक पुरी, सी-1 नई दिल्ली-59	पुत्री श्री प्रदीप कुमार	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	ई-96, चान्दा पेलैस-1, जनक पुरी, सी-1 नई दिल्ली-59	बीएचएसडी / 4701 13.08.2013
17.	डॉ. आरुशी शर्मा, बी०-1548 वसन्त कुंज, नई दिल्ली-70	पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा	बीएचएमएस / 11 बी.आर.ए.वि टागरा	25	बी०-1548 वसन्त कुंज, नई दिल्ली-70	बीएचएसडी / 4710 03.09.2013
18.	डॉ. अंकित शर्मा, जे एण्ड के०-150, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	पुत्र श्री शयम प्रकाश शर्मा	बीएचएमएस / 11 बी.आर.ए.वि आगरा	24	जे एण्ड के०-150, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	बीएचएसडी / 4712 04.09.2013
19.	डॉ. अमृता आनन्द, एस-33, सेकण्ड पलौर, स्कूल ल्काक, शकरपुर दिल्ली-92	पुत्री श्री अरुण कुमार	बीएचएमएस / 11 बी.आर.ए.वि आगरा	23	एस-33, सेकण्ड पलौर, स्कूल ल्काक, शकरपुर दिल्ली-92	बीएचएसडी / 4714 04.09.2013
20.	डॉ. अंकित पाल, जी-242, श्री निवासपुरी, नई दिल्ली-65	पुत्री श्री जगन नाथ	बीएचएमएस / 12 बी.आर.ए.वि आगरा	26	जी-242, श्री निवासपुरी, नई दिल्ली-65	बीएचएसडी / 4717 10.09.2013
21.	डॉ. अंकिता, ई-10 पालिका कुंज, बी के० दत्त कॉलोनी, एन डी एम सी स्टॉफ वर्काटर, नई दिल्ली-03	पुत्री श्री सुखबीर सिंह	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	ई-10 पालिका कुंज, बी के० दत्त कॉलोनी, एन डी एम सी स्टॉफ वर्काटर, नई दिल्ली-03	बीएचएसडी / 4722 27.09.2013
22.	डॉ. अभित नायक, डी-47, विश्वाकरमा कॉलोनी, एमबी रोड नियर पुल प्रहलादपुर, नई दिल्ली-44	पुत्र श्री जगदीश शाही शर्मा	बीएचएमएस / 05 विक्रम. वि. उज्जैन	33	डी-47, विश्वाकरमा कॉलोनी, एमबी रोड नियर पुल प्रहलादपुर, नई दिल्ली-44	बीएचएसडी / 4726 26.11.2013
23.	डॉ. आशिष शंकर, 40, जीवन आनन्द, सोसाइटी, वेरस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-34	पुत्री डौ०. जटा शंकर	बीएचएमएस / 94 आगरा. वि.	45	40, जीवन आनन्द, सोसाइटी, वेरस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-34	बीएचएसडी / 4730 10.01.2014
24.	डॉ. आयुशी सक्सेना, वर्काटर न0-731, सैकटर-4, आर० के० पुरम दिल्ली-22	पुत्री श्री प्रदीप सक्सेना	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	वर्काटर न0-731, सैकटर-4, आर० के० पुरम दिल्ली-22	बीएचएसडी / 4731 21.01.2014

25.	डॉ. अमित श्रीवास्तव, डी2ए/29सी, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	पुत्र श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव	डीएचएमएस/98 म. प्र. का०	38	डॉ2ए/29सी, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	बीएचएसडी/4732 22.01.2014
26.	डॉ. अमिताभ उपाध्या, डी-123, ब्लाक-डी, कृष्णा पार्क, खानपुर दिल्ली-110062	पुत्र श्री देवानन्द उपाध्या ए	बीएचएमएस/11 बी.आर.ए.वि विहार	43	डी-123, ब्लाक-डी, कृष्णा पार्क, खानपुर, दिल्ली-110062	बीएचएसडी/4735 24.02.2014
27.	डॉ. अर्चना बकरी, डी-106, आगन्द विहार, दिल्ली-92	पुत्री श्री हक्मत राय गोसाई	डीएचएमएस/85 पंजाब० का०	35	डी-106, आगन्द विहार, दिल्ली-92	बीएचएसडी/4740 20.05.2014
28.	डॉ. अर्चना शर्मा, एफ-7/419 गंगा विहार दिल्ली-94	पुत्री श्री आरओआर० शर्मा	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	22	एफ-7/419 गंगा विहार दिल्ली-94	बीएचएसडी/4743 23.05.2014
29.	डॉ. अर्शा जी. कुरुप, प्लेट न०-435 युप-2 जनता फ्लैट हस्तशाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	पुत्री श्री टी.एम. गोपीनाथ	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	प्लेट न०-435 युप-2 जनता फ्लैट हस्तशाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	बीएचएसडी/4758 26.05.2014
30.	डॉ. असमीता गौतम, 1449/56-बी शिव मार्ग दुर्गापुरी शाहदरा, दिल्ली-32	पुत्री श्री देव पाल सिंह	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	1449/56-बी शिव मार्ग दुर्गापुरी शाहदरा, दिल्ली-93	बीएचएसडी/4784 03.06.2014
31.	डॉ. अकिता शर्मा, बी-64/2, गली न०-6, जगतपुरी, दिल्ली-110051	पुत्री श्री विनय कुमार शर्मा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	बी-64/2, गली न०-6, जगतपुरी, दिल्ली-110051	बीएचएसडी/4791 04.06.2014
32.	डॉ. अन्जुला नारंगा, ए-34, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री बलदेव किशन नारंग	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	ए-34, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4797 05.06.2014
33.	डॉ. अनु मकान नं. आरजेडई-91, न्यू रोशनपुरा नजफगढ़, साउथ दिल्ली-43	पुत्री श्री मधन सिंह	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	मकान नं. आरजेडई-91, न्यू रोशनपुरा नजफगढ़, साउथ दिल्ली-43	बीएचएसडी/4803 09.06.2014
34.	डॉ. अभिषेक चौधरी, जीजी-1/92-बी, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	पुत्री श्री रूपक चौधरी	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	जीजी-1/92-बी, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	बीएचएसडी/4813 24.06.2014
35.	डॉ. अखिलेश कुमार शुक्ला, ई-6/61, ई-ब्लाक, गली न०-6 मकान न०-61, सगम विहार, नई दिल्ली-80	पुत्री श्री महेश चन्दा शुक्ला	बीएचएमएस/05 जयपुर. वि.	31	ई-6/61, ई-ब्लाक, गली न०-6 मकान न०-61, सगम विहार, नई दिल्ली-80	बीएचएसडी/4824 07.07.2014
36.	डॉ. आकाशा प्रिया, जे-एन 21 ए, द्वितीय तल आर्या समाज रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री गोपाल भिश्रा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	जे-एन 21 ए, द्वितीय तल, आर्या समाज रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4830 23.07.2014
37.	डॉ. अभिषेक दुग्गल, बीजी-2/20डी डीडीए फ्लैट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63	पुत्र श्री नरेश कुमार दुग्गल	बीएचएमएस/13 दि. वि.	25	बीजी-2/20डी डीडीए फ्लैट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63	बीएचएसडी/4832 23.07.2014

38	डॉ. अरुण कुमार जयंत, प्लेट नं.-55, पाकेट-ए, फेस-2 सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली-78	पुत्र श्री बंचन सिंह	बीएचएस/13 दि. वि.	30	प्लेट नं.-55, पाकेट-ए, फेस-2 सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली-78	बीएचएसडी/4837 25.07.2014
39	डॉ. आकांक्षा वर्मा, जीएच-6/69, प्राचीन अपाठ मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087	पुत्री श्री महेश चन्द्र वर्मा	बीएचएस/13 दि. वि.	24	जीएच-6/69, प्राचीन अपाठ मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087	बीएचएसडी/4847 28.07.2014
40	डॉ. आदित्य फौजदार, जीवी-79, पुल प्रहलादपुर, नई दिल्ली-110044	पुत्री श्री सत्य देव	बीएचएस/13 दि. वि.	23	जीवी-79, पुल प्रहलादपुर, नई दिल्ली-110044	बीएचएसडी/4849 28.07.2014
41	डॉ. अमियानन्दा देव गोस्वामी ई-6, भूतल, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	पुत्री श्री किशोरनन्दा देव गोस्वामी	बीएचएस/93 वेहरामपुर.वि. उडीसा	41	ई-6, भूतल, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	बीएचएसडी/4852 28.07.2014
42	डॉ. अनुज सरीन, ए2/97, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	पुत्र डॉ. अनिल चन्द्र सरीन	बीएचएस/07 जे.आर.एन.वि. राज०	34	ए2/97, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	बीएचएसडी/4853 28.07.2014
43	डॉ. बलजीत सिंह, 129-डी, शिव विहार, चन्द्र विहार, निलोठी नई दिल्ली-41	पुत्र डॉ. कुलवन्त सिंह सिंह	बीएचएस/81 विहार. वि.	59	129-डी, शिव विहार, चन्द्र विहार, निलोठी नई दिल्ली-41	बीएचएसडी/4577 02.05.2013
44	डॉ. बेबी, मकान न0-4, विल्सेज निठारी, नई दिल्ली-86	पुत्री श्री ओम प्रकाश	बीएचएस/05 बी.आर.ए.वि विहार	36	मकान न0-4, विल्सेज निठारी, नई दिल्ली-86	बीएचएसडी/4578 02.05.2013
45	डॉ. भावना अग्रवाल, 316, रिशी नगर, रानी बाग, दिल्ली-34	पुत्री श्री अनिल कुमार अग्रवाल	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	316, रिशी नगर, रानी बाग, दिल्ली-34	बीएचएसडी/4583 21.05.2013
46	डॉ. बिनू सेनी, 791, सेनी मोहल्ला शाहबाद, मोहम्मद पुर, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110061	पुत्री श्री चरन सिंह सेनी	बीएचएस/12 दि. वि.	24	791, सेनी मोहल्ला, शाहबाद, मोहम्मद पुर, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110061	बीएचएसडी/4647 03.06.2013
47	डॉ. बरखा पोखरिया, 10-ए अशोका आपार्टमेंट, देवली खानपुर नई दिल्ली-62	पुत्री श्री राकेश कुमार पोखरिया	बीएचएस/12 दि. वि.	25	10-ए अशोका आपार्टमेंट, देवली खानपुर नई दिल्ली-62	बीएचएसडी/4699 01.08.2013
48	डॉ. भृपेन्द्र कौर, जे-13/24, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-27	पुत्री श्री एस. दर्शन सिंह	बीएचएस/07 बा. फरीद वि.	28	जे-13/24, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-27	बीएचएसडी/4736 27.02.2014
49	डॉ. भाग्यश्री सिंह, एच-19/132, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	पुत्री श्री अशवनी सिंह	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	एच-19/132, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी/4749 23.5.2014
50	डॉ. चेतना शर्मा, 408, 16 ब्लाक, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-03	पुत्री श्री जय प्रकाश शर्मा	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	408, 16 ब्लाक, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-03	बीएचएसडी/4598 22.05.2013

51	डॉ. छवी बाली 605 एण्ड 608 डी० डी० ए० बिल्डिंग न०-२, डी. सी. जनकपुरी, नई दिल्ली-1100058	पुत्री श्री एल. के. बाली	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	605 एण्ड 608 डी० डी० ए० बिल्डिंग न०-२, डी. सी. जनकपुरी, नई दिल्ली-1100058	बीएचएसडी/4688 04.07.2013
52	डॉ. छाया पवार बीएच2, १३६-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-६३	पुत्री श्री रनवीर सिंह	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	जीएच2, १३६-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-६३	बीएचएसडी/4786 03.06.2014
53	डॉ. धानी ४/१७ जंगपुरा लेन, मेन भोगल मधुरा रोड नई दिल्ली-110014	पुत्री श्री राज	बीएचएमएस/१२ इ.प्र.वि.दिल्ली	24	४/१७ जंगपुरा लेन, मेन भोगल मधुरा रोड नई दिल्ली-110014	बीएचएसडी/4586 21.05.2013
54	डॉ. हित्या जैन बी-२/१६ राना प्रताप बाग, दिल्ली-110007	पुत्री श्री कैलाश कुमार जैन	बीएचएमएस/१२ दि. वि.	23	बी-२/१६ राना प्रताप बाग, दिल्ली-110007	बीएचएसडी/4634 27.05.2013
55	डॉ. दीपा मकान न०-५१२, बी.पी.ओ. कटेवरा दिल्ली-110039	पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह	बीएचएमएस/१२ दि. वि.	23	मकान न०-५१२, बी.पी.ओ. कटेवरा दिल्ली-110039	बीएचएसडी/4648 03.06.2013
56	डॉ. दिक्षा शर्मा १५६/२१, चन्दनहुल्ला छत्तरपुर रोड नई दिल्ली-७४	पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा	बीएचएमएस/१० कुमाऊ. वि.	25	१५६/२१, चन्दनहुल्ला छत्तरपुर रोड नई दिल्ली-७४	बीएचएसडी/4687 04.07.2013
57	डॉ. दवे हेतल पंकज ३/१ मधुबन आपर्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	पुत्री श्री पंकज सी दवे	बीएचएमएस/०२ गुजरात. वि	33	३/१ मधुबन आपर्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	बीएचएसडी/4692 29.07.2013
58	डॉ. दीपिका सिंह मकान न०-७४९, पॉकेट-५, मयूर विहार पफेस-१ दिल्ली-९१	पुत्री डॉ. देवन्द्र सिंह	बीएचएमएस/०६ बरकतुल्लाह वि. भोपाल	31	मकान न०-७४९, पॉकेट-५, मयूर विहार फेस-१ दिल्ली-९१	बीएचएसडी/4725 26.11.2013
59	डॉ. दिक्षिता ७८-बी, एलआईजी फ्लेट प्रसाद नगर, करोल बाग, नई दिल्ली	पुत्री श्री विरेन्द्र कुमार	बीएचएमएस/१२ इ.प्र. वि.दिल्ली	23	७८-बी, एलआईजी फ्लेट प्रसाद नगर, करोल बाग, नई दिल्ली	बीएचएसडी/4745 23.05.2014
60	डॉ. धैर्या शाहनी बी-३१/१, गली न० १८, हनुमान मंदिर रोड, किरन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली-५९	पुत्री श्री सुशील कुमार शाहनी	बीएचएमएस/१२ इ.प्र.वि.दिल्ली	26	बी-३१/१, गली न० १८, हनुमान मंदिर रोड, किरन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली-५९	बीएचएसडी/4746 23.05.2014
61	डॉ. दिपशिखा मिश्रा मकान न० ७४१, लैन न० १४, राजनगर पार्ट-२, पालम, नई दिल्ली-110077	पुत्री श्री किशतो कुमार मिश्रा	बीएचएमएस/१२ इ.प्र.वि.दिल्ली	22	मकान न० ७४१, लैन न० १४, राजनगर पार्ट-२ पालम, नई दिल्ली-110077	बीएचएसडी/4760 26.05.2014
62	डॉ. दिप्पी शर्मा डी-२०८, मेट्रो विहार, डीएमआरसी स्टाफ कर्वाटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली-५३	पुत्री श्री सत्यदेव शर्मा	बीएचएमएस/१३ दि. वि.	23	डी-२०८, मेट्रो विहार, डीएमआरसी स्टाफ कर्वाटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली-५३	बीएचएसडी/4777 03.06.2014

63	डॉ. दिपिका त्रिपाठी, सी-422 द्वितीय तल, मोहन गली नानक चन्द बस्टी कोटला मुवारकपुर, नई दिल्ली-03	पुत्री श्री देवकी नन्दन त्रिपाठी	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	27	सी-422 द्वितीय तल, मोहन गली, नानक चन्द बस्टी कोटला मुवारकपुर, नई दिल्ली-03	बीएचएसडी / 4828 23.07.2014
64	डॉ. दीपक कुमार 52, केन निवास, मेन रोड जोहरीपुर, दिल्ली-94	पुत्र श्री धर्म पाल	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	23	52, केन निवास, मेन रोड जोहरीपुर, दिल्ली-94	बीएचएसडी / 4843 28.07.2014
65	डॉ. दामिनी ढल्ल 394, दिल्ली गेट बजार, नई दिल्ली-110002	पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार ढल्ल	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	23	394, दिल्ली गेट बजार, नई दिल्ली-110002	बीएचएसडी / 4845 28.07.2014
66	डॉ. एकता अग्रवाल फ्लैट नं0-40, सेक्टर-1, पॉकेट-1, डी. डी. ए. एस. एफ. एस फ्लैट्स, द्वारका, नई दिल्ली-75	पुत्री श्री ए. के. अग्रवाल	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	22	फ्लैट नं0-40, सेक्टर-1, पॉकेट-1, डी. डी. ए. एस. एफ. एस फ्लैट्स, द्वारका, नई दिल्ली-75	बीएचएसडी / 4673 10.08.2013
67	डॉ. ईश्वर दास ए2 / 23, हनीमन एन्कलेव प्लाट नं0-40, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-75	पुत्र स्व० श्री बाला कृष्णा पिल्लई	डीएचएमएस / 73 टी.एम. का०	83	ए2 / 23, हनीमन एन्कलेव प्लाट नं0-40, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-75	बीएचएसडी / 4860 30.07.2014
68	डॉ. गुंजन राय 53-बी, डी. डी. ए. फ्लैट्स, आनन्द विहार, दिल्ली-110092	पुत्री श्री राम राय	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	53-बी, डी. डी. ए फ्लैट्स, आनन्द विहार, दिल्ली-110092	बीएचएसडी / 4626 24.05.2013
69	डॉ. गरिमा सिंह बी-63, जीवन पार्क, पन्था रोड़, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री राम निवास	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	बी-63, जीवन पार्क पन्था रोड, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी / 4641 27.05.2013
70	डॉ. गरीमा गौतम ए/2, पालिका आवास, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23	पुत्री श्री मनोज कुमार गौतम	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	ए/2, पालिका आवास, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23	बीएचएसडी / 4643 31.05.2013
71	डॉ. गुरदीप धिमान एल-एक्सटेशन, 348 मोहन गार्डन, उत्तम नगर नई दिल्ली-59	पुत्र श्री खेम चंद धिमान	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	एल-एक्सटेशन, 348 मोहन गार्डन, उत्तम नगर नई दिल्ली-59	बीएचएसडी / 4650 03.06.2013
72	डॉ. गविश कुमार ए-17, एचसी, सावन पार्क, अशोक विहार-3 दिल्ली-110052	पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	ए-17, एचसी, सावन पार्क, अशोक विहार-3, दिल्ली-110052	बीएचएसडी / 4764 27.05.2014
73	डॉ. गुरप्रीत कौर 99 प्रताप खण्ड, विश्वकर्मा नगर, झिलमिल कालोनी, दिल्ली-95	पुत्री श्री जसबीर सिंह	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	27	99 प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगर, झिलमिल कालोनी, दिल्ली-95	बीएचएसडी / 4833 23.07.2014

74	डॉ. हिमाच्यु कुकरेजा ब्लक-बी के-2, मकान न0-20, तीसरी मजिल शलीमार बाग, दिल्ली-110088	पुत्र श्री रमेश कुमार कुकरेजा	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	ब्लाक बीके-2, मकान न0-20, तीसरी मजिल शलीमार बाग, दिल्ली-110088	बीएचएसडी/4604 22.05.2013
75	डॉ. हृदय पांत मकान न0-76, सैकटर-9, आर. के. पुरम नई दिल्ली-22	पुत्र स्व श्री सोहन चन्द्र पन्त	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	मकान न0-76, सैकटर-9, आर. के. पुरम नई दिल्ली-22	बीएचएसडी/4652 03.06.2013
76	डॉ. हिमाच्यु शर्मा बी-4/42ए, एल. आई. जी फ्लैट्स, अशोक विहार-2, दिल्ली-52	पुत्र श्री एच. पी. शर्मा	बीएचएमएस/12 बी.आर.ए.वि आगरा	28	बी-4/42ए, एल. आई. जी फ्लैट्स अशोक विहार-2, दिल्ली-52	बीएचएसडी/4720 26.09.2013
77	डॉ. हर्ष अवस्थी एफ-255, हरी नन्द भवन नियर पालीवल धर्मशाला लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	पुत्र श्री बी. डी. अवस्थी	बीएचएमएस/11 बी.आर.ए.वि विहार	24	एफ-255, हरी नन्द भवन नियर पालीवल धर्मशाला लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	बीएचएसडी/4724 12.11.2013
78	डॉ. हेमलता सिंह, आरजेड-236, चंतन विहार, गोपाल नगर, डांसा रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली-43	पुत्री श्री एम० डी० सिंह	बीएचएमएस/12 इ.प्र. वि.दिल्ली	39	आरजेड-238, चंतन विहार, गोपाल नगर, डांसा रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली-43	बीएसएसडी/4744 23.05.2014
79	डॉ. हरप्रीत सिंह बी-26, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव-द्वितीय प्रथम तल, नई दिल्ली	पुत्र स्व० डॉ. रविंद्र सिंह घई	बीएचएमएस/02 नार्थ.गुजरात.वि.	32	बी-25, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव-द्वितीय प्रथम तल, नई दिल्ली	बीएचएसडी/4765 30.05.2014
80	डॉ. हरप्रीत कौर 2172/167, गणेश पुरा-बी, त्रिनगर, दिल्ली-35	पुत्री श्री जगदेव सिंह	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	2172/167, गणेश पुरा-बी, त्रिनगर, दिल्ली-35	बीएचएसडी/4767 02.06.2014
81	डॉ. हरप्रीत कौर सहगल डी-25, टैगौर गार्डन एक्स०, नई दिल्ली-27	पुत्री श्री गुलजार सिंह	बीएचएमएस/13 दि. वि.	25	डी-25, टैगौर गार्डन एक्स०, नई दिल्ली-27	बीएचएसडी/4778 03.06.2014
82	डॉ. हरमुख मेहता एफ-33बी, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-18	पुत्र स्व. श्री सिमरत सिंह मेहता	बीएचएमएस/12 जीवाजी.वि. खा०	25	एफए-33बी, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-18	बीएचएसडी/4816 30.06.2014
83	डॉ. हिमाच्यु अतेन्द्र मलिक ए-2537, नेताजी नगर, नई दिल्ली-23	पुत्र श्री राजपाल सिंह मलिक	बीएचएमएस/13 दि. वि.	25	ए-2537, नेताजी नगर, नई दिल्ली-23	बीएचएसडी/4842 28.07.2014
84	डॉ. हेम चन्द्रा वर्मा 1132, एम.सी. पब्लिक स्कूल नियर दादा मंडे मंदिर, कराता, दिल्ली-81	पुत्र श्री लीला धर वर्मा	डीएचएमएस/93 एम. पी. का०	46	1132, एम.सी. पब्लिक स्कूल नियर दादा मंडे मंदिर, कराता, दिल्ली-81	बीएचएसडी/4859 30.07.2014
85	डॉ. ईशा शर्मा प्लॉट न0-723, पाकेट-डी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95	पुत्री श्री गिरीश शर्मा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	प्लैट न0-723, पाकेट-डी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95	बीएचएसडी/4795 05.06.2014
86	डॉ. ज्योतसाना वाली टी-25/1 सेवा मेडिकल लैब, खिरकी एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	पुत्री श्री विजय कुमार वाली	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	टी-25/1 सेवा मेडिकल लैब, खिरकी एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	बीएचएसडी/4610 23.05.2013

87	डॉ. जसमिन वोहरा ई-207, ग्राउंड फ्लोर, टैगोर गार्डन, एक्सटेंशन नई दिल्ली-110027	पुत्री श्री इन्द्रजीत सिंह	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	25	ई-207, ग्राउंड फ्लोर, टैगोर गार्डन, एक्सटेंशन नई दिल्ली-110027	बीएचएसडी / 4635 27.05.2013
88	डॉ. जसमिन वोहरा ई-207, भूमितल, टैगोर गार्डन, एक्सटेंशन नई दिल्ली-27	पुत्री श्री इन्द्रजीत सिंह	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	25	ई-207, भूमितल, टैगोर गार्डन, एक्सटेंशन नई दिल्ली-110027	बीएचएसडी / 4635 27.05.2013
89	डॉ. जेम्स मिचाड 46ए, डी. डी. ए जनता फ्लैट्स, शिवाजी एन्कलेव एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110027	पुत्र श्री वी. सी. मिचाड	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	46ए, डी. डी. ए जनता फ्लैट्स, शिवाजी एन्कलेव एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110027	बीएचएसडी / 4657 04.06.2013
90	डॉ. ज्योती सिंह मकान न0-एफ / 78 विलेज रंगपुरी, पी. ओ. महिपालपुर, नई दिल्ली-110037	पुत्री श्री जगवीर सिंह	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	मकान न0-एफ / 78 विलेज रंगपुरी, पी. ओ. महिपालपुर, नई दिल्ली-110037	बीएचएसडी / 4676 12.08.2013
91	डॉ. जुही अनेजा डब्ल्यू-2, 7/2 हरी सिंह पार्क, न्यू मुलतान नगर नई दिल्ली-110056	पुत्री श्री धर्मवीर अनेजा	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	डब्ल्यू-2, 7/2 हरी सिंह पार्क, न्यू मुलतान नगर नई दिल्ली-110056	बीएचएसडी / 4703 30.08.2013
92	डॉ. जयदीप शर्मा ए3, 82/1, सैकटर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	पुत्र डॉ. महेश शर्मा	बीएचएमएस / 12 राज. आयू० वि.	25	ए3, 82/1, सैकटर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी / 4729 26.12.2013
93	डॉ. जसप्रीत कौर जी-33, अन्सारी नगर ईष्ट, एम्स क्वाट्स, नई दिल्ली-29	पुत्री श्री दतवीर सिंह	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	23	जी-33, अन्सारी नगर ईष्ट, एम्स क्वाट्स, नई दिल्ली-29	बीएचएसडी / 4802 09.06.2014
94	डॉ. जमिल अख्तार 47/10, राजपुर रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-54	पुत्री श्री मुजाहिदुल हक	बीएचएमएस / 11 बी.आर.ए. वि. गिहार	32	47/10, राजपुर रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-54	बीएचएसडी / 4826 18.07.2014
95	डॉ. कामनी कौशल डी-16, प्लॉट न0-10, सैकटर. 10, द्वारका नई दिल्ली-75	पुत्री श्री चमन लाल	बीएचएमएस / 06 पं. वि.	29	डी-16, प्लॉट न0-10, सैकटर. 10, द्वारका नई दिल्ली-75	बीएचएसडी / 4576 02.05.2013
96	डॉ. कविता आनन्द मकान न0-440/3, गली न0-5, भोलानाथ नगर शाहदरा, दिल्ली-32	पुत्री श्री आर. एल. आनन्द	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	28	मकान न0-440/3, गली न0-5, भोलानाथ नगर शाहदरा, दिल्ली-32	बीएचएसडी / 4591 22.05.2013
97	डॉ. काव्या एजी-1/171-बी, विकास पुरी, नई दिल्ली-18	पुत्री श्री प्रेमपाल	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	एजी-1/171-बी, विकास पुरी, नई दिल्ली-18	बीएचएसडी / 4620 23.05.2013
98	डॉ. खुशबू गर्ग ए-23/ए, मिलाप नगर उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री वेद प्रकाश गर्ग	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	ए-23/ए, मिलाप नगर उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी / 4670 07.06.2013

99	डॉ. कुमुम लता डी-39/बी राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली-41	पुत्री श्री ईश्वर दास	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	डी-39/बी राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली-41	बीएचएसडी/4689 10.07.2013
100	डॉ. कविता शर्मा 162/1, ब्लॉक-बी, गली नं०-9, भजनपुरा दिल्ली-53	पुत्री श्री शिव कुमार शर्मा	बीएचएमएस/11 बी.आर.ए.वि	23	162/1, ब्लॉक-बी, गली नं०-9, भजनपुरा दिल्ली-53	बीएचएसडी/4709 03.09.2013
101	डॉ. कीर्ति शर्मा डी-113 टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-27	पुत्री श्री एन. के. शर्मा	बीएचएमएस/11 बी.आर.ए.वि आगरा	24	डी-113 टैगोर गार्डन, एक्सटेंशन, नई दिल्ली-27	बीएचएसडी/4711 04.09.2013
102	डॉ. किरण शंकर बेरा, 74, शाहपुर जाट, नई दिल्ली-49	पुत्र श्री हेमन्त बेरा	बीएचएमएस/10 प०००५०३०५० हैल्पोसाइन्स	30	74, शाहपुर जाट, नई दिल्ली-49	बीएसएसडी/4738 01.04.2014
103	डॉ. कनिका गुप्ता सी-2डी/50-बी, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	पुत्री श्री ललित गुप्ता	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	12	सी-2डी/50-बी, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	बीएचएसडी/4748 23.05.2014
104	डॉ. कल्पना राजपूत 59-बी/सी-II न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110091	पुत्री श्री युधिष्ठिर सिंह	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	59-बी/सी-II न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110091	बीएचएसडी/4761 27.05.2014
105	डॉ. कोमल शर्मा खासरा नं०-123/19/3, गली नं० 9, संत नगर, बुरारी, दिल्ली-84	पुत्री श्री किशन स्वरूप शर्मा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	खासरा नं०-123/19/3, गली नं० 9, संत नगर, बुरारी, दिल्ली-84	बीएचएसडी/4776 03.06.2014
106	डॉ. खन्सा जमील ए-226 अद्वुल फजल एन्कलेव पार्ट-2, शाहीन बाग, ओखला, नई दिल्ली-25	पुत्री श्री जमील अहमद फारुखी	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	ए-226 अद्वुल फजल एन्कलेव पार्ट-हितीय, शाहीन बाग, ओखला, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी/4787 03.06.2014
107	डॉ. कनिका जैरथ ई-6/8, कृष्णा नगर, दिल्ली-51	पुत्री श्री नरेश कुमार जैरथ	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	ई-6/8, कृष्णा नगर, दिल्ली-51	बीएचएसडी/4798 05.06.2014
108	डॉ. कविता वर्मा ई-1/133, सेक्टर-10, रोहिणी, दिल्ली-35	पुत्री श्री मुंशी लाल	बीएचएमएस/13 दि. वि.	25	ई-1/133, सेक्टर-10, रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी/4850 28.07.2014
109	डॉ. मनमीत कौर 4508/11 जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली-35	पुत्री श्री महेन्द्र सिंह	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	4508/11 जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली-35	बीएचएसडी/4595 22.05.2013
110	डॉ. मिनाक्षी रावत बी-1/244, पहली मजिल, मोती नगर नई दिल्ली-110015	पुत्री श्री बलबीर सिंह रावत	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	बी-1/244, पहली मजिल, मोती नगर नई दिल्ली-110015	बीएचएसडी/4599 22.05.2013
111	डॉ. मोहित अरोड़ा जोड़-89, दयाल सर रोड, ओम विहार, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059	पुत्र श्री कन्चल किशोर अरोड़ा	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	जेड-89, दयाल सर रोड, ओम विहार, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059	बीएचएसडी/4602 22.05.2013

112	डॉ. मानसी सोनी 1730-डी, चूना मण्डी पहाड़गंज, नई दिल्ली-55	पुत्री श्री राकेश कुमार सोनी	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	1730-डी, चूना मण्डी पहाड़ गंज, नई दिल्ली-55	बीएचएसडी/4607 22.05.2013
113	डॉ. मृदुला अग्रवाल बी-302, नीलाचल अपार्टमेंट, प्लॉट नं-3, सैकटर-4 द्वारका, नई दिल्ली-78	पुत्री श्री एस. के. अग्रवाल	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	बी-302, नीलाचल अपार्टमेंट, प्लॉट नं-3, सैकटर-4 द्वारका, नई दिल्ली-78	बीएचएसडी/4615 23.05.2013
114	डॉ. मनु गौर 11/32, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60	पुत्री श्री प्रभाकर	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	11/32, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60	बीएचएसडी/4638 27.05.2013
115	डॉ. मिनाक्षी गुप्ता जीएच-1/ 163 अर्चना अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार नई दिल्ली-63	पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	जीएच-1/ 163 अर्चना अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार नई दिल्ली-63	बीएचएसडी/4645 03.06.2013
116	डॉ. मधुरी त्रिवेदी ए-1/64-ए, केशव पुरम, दिल्ली-35	पुत्री श्री डी. एन. त्रिवेदी	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	ए-1/64-ए, केशव पुरम, दिल्ली-35	बीएचएसडी/4651 03.06.2013
117	डॉ. मधु लता मकान नं-472/16, गली नं-0-1, चिरती चमन किशन गंज, दिल्ली-110007	पुत्री श्री मन्ना लाल	बीएचएमएस/12 दि. वि.	25	मकान नं-472/16, गली नं-0-1, चिरती चमन किशन गंज, दिल्ली-110007	बीएचएसडी/4654 04.06.2013
118	डॉ. मेधा बन्सल जी-16/32 पहली मंजिल, सैकटर-15, रोहिणी दिल्ली-110085	पुत्री श्री नरेश बन्सल	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	जी-16/32 पहली मंजिल, सैकटर-15, रोहिणी दिल्ली-110085	बीएचएसडी/4667 04.06.2013
119	डॉ. मोहम्मद रफी 297 ए गली नं-0-2, डी-ब्लॉक, नेहरू विहार दिल्ली-110094	पुत्र श्री रईस अहमद	बीएचएमएस/12 राज.आयू.वि.	27	297 ए, गली नं-0-2, डी-ब्लॉक, नेहरू विहार दिल्ली-110094	बीएचएसडी/4661 20.06.2013
120	डॉ. महक गुप्ता 3/159 सुन्दर विहार, नियर सेयद, नांगलोई नई दिल्ली-110087	पुत्री श्री राकेश कुमार गुप्ता	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	3/159, सुन्दर विहार, नियर सेयद, नांगलोई नई दिल्ली-110087	बीएचएसडी/4685 03.07.2013
121	डॉ. मनमीत कौर 434 झील खुरंजा, दिल्ली-110051	पुत्री श्री रविन्द्र सिंह कक्कर	बीएचएमएस/12 बी.आर.ए.वि आगरा	24	434, झील खुरंजा, दिल्ली-110051	बीएचएसडी/4721 27.09.2013
122	डॉ. मोहसिन खान ए/27 बाबरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110044	पुत्र मोहम्मद शकील खान	बीएचएमएस/11 बी.आर.ए.वि	27	ए/27 बाबरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110044	बीएचएसडी/4728 16.12.2013
123	डॉ. मेधा किरन, प्लाट-एटी-केएच-21/5 कुतुब विहार फैस-1 ई-ब्लॉक गोयला डायरी, नई दिल्ली-72	पुत्री श्री उदय चन्द्रा चौधरी	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	प्लाट-एटी-केएच-21/5 कुतुब विहार फैस-1 ई-ब्लॉक गोयला डायरी, नई दिल्ली-71	बीएचएसडी/4741 23.05.2014
124	डॉ. मीरा कुमारी बी-114, मधु विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री नारद सिंह	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	बी-114, मधु विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4763 27.05.2014

125	डॉ. मनोषा मकान नं. 86, सिसोदीया मौहल्ला, बक्तावरपुर, दिल्ली-110036	पुत्री श्री राज सिंह बीएचएस/13 दि. वि.	23	मकान नं० 86, सिसोदीया मौहल्ला, बक्तावरपुर, दिल्ली-110036	बीएचएसडी/4770 02.06.2014	
126	डॉ. मोहन लता पी-1/4 बुद्ध विहार फेस-1, दिल्ली-110086	पुत्री श्री विजय कुमार बीएचएस/13 दि. वि.	24	पी-1/4 बुद्ध विहार, फेस-1, दिल्ली-110086	बीएचएसडी/4788 03.06.2014	
127	डॉ. मिनाक्षी काडपाल 308ए पण्डित मौहल्ला गाँव कोडली, दिल्ली-96	पुत्री श्री बी०डी० काडपाल बीएचएस/13 दि. वि.	25	308ए पण्डित मौहल्ला, गाँव कोडली, दिल्ली-96	बीएचएसडी/4790 04.06.2014	
128	डॉ. मनोनी मैती 67/5345 रेगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-05	पुत्री श्री चित्रा रंजन मैती	बीएचएस/13 दि. वि.	24	67/5345, रेगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-05	बीएचएसडी/4805 10.06.2014
129	डॉ. मोनीशा पानीकर 127-डी, आई-पाकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95	पुत्री श्री पी.जे. मोहन पानीकर	बीएचएस/13 दि. वि.	23	127-डी, आई-पाकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95	बीएचएसडी/4807 10.06.2014
130	डॉ. मिनी अरोरा एसडी-445, टावर अपार्टमेंट प्रीतमपुरा, दिल्ली-34	पुत्री श्री रूप नारायण	बीएचएस/93 राज. वि.	42	एसडी-445, टावर अपार्टमेंट प्रीतमपुरा, दिल्ली-34	बीएचएसडी/4811 17.06.2014
131	डॉ. मरम्प आर-202, लेन नं. 5, सर सयद रोड, जोगाबाई एक्स., जामिया नगर, नई दिल्ली-25	पुत्री श्री वकार अली	बीएचएस/13 दि. वि.	23	आर-202, लेन नं० 5, सर सयद रोड, जोगाबाई एक्स०, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी/4821 03.07.2014
132	डॉ. मेघा सुनेजा 7/304, लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, दिल्ली-110092	पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार सुनेजा	बीएचएस/13 दि. वि.	24	7/304, लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, दिल्ली-110092	बीएचएसडी/4848 28.07.2014
133	डॉ. नितिका भित्तल जिंदल विला, एच-5/4, मॉडल टाउन-2 दिल्ली-06	पुत्री श्री पवन भित्तल	बीएचएस/05 वा. फरीद वि.	30	जिंदल विला, एच-5/4, मॉडल टाउन-2 दिल्ली-09	बीएचएसडी/4574 01.04.2013
134	डॉ. नवनित रिशोही डी-153, कृष्णा पार्क, देवली रोड, खानपुर नई दिल्ली-110062	पुत्र श्री श्याम वीर सिंह	बीएचएस/08 वी.आर.ए.वि विहार	30	डी-153, कृष्णा पार्क, देवली रोड, खानपुर नई दिल्ली-110062	बीएचएसडी/4582 21.05.2013
135	डॉ. नूपुर चन्द ए-2 ब्लॉक गली न०-३, हिमण्डी एन्कलेव, बुराडी नियर ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी, दिल्ली-110084	पुत्र श्री महेश चन्द	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	ए-2 ब्लॉक, गली न०-३, हिमण्डी एन्कलेव, बुराडी नियर ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी, दिल्ली-110084	बीएचएसडी/4600 22.05.2013
136	डॉ. नेहा ढोन्डियाल सी-321, मानव अपार्टमेंट, सैक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085	पुत्री श्री ललित प्रसाद ढोन्डियाल	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	सी-321, मानव अपार्टमेंट, सैक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085	बीएचएसडी/4601 22.05.2013
137	डॉ. निधि ठाकुर वी-677, जी. डी. कॉलोनी, मयूर विहार फेस-3 दिल्ली-110096	पुत्री श्री इम्मे सिंह ठाकुर	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	25	वी-677, जी. डी. कॉलोनी, मयूर विहार फेस-3 दिल्ली-110096	बीएचएसडी/4609 23.05.2013

138	डॉ. नवनीत आनन्द 245, मा० बलवन सिंह टोकस, तीसरी मजिल मुगिरका, नई दिल्ली-110067	पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ राय	बीएचएमएस/12 दि. वि. दिल्ली	24	245, मा० बलवन सिंह टोकस, तीसरी मजिल मुगिरका, नई दिल्ली-110067	बीएचएसडी/4612 23.05.2013
139	डॉ. निशा शर्मा आर जेड-1 ब्लॉक, मकान न०-158, वेस्ट सागरपुर गली न०-8सी, नई दिल्ली-110046	पुत्री श्री रामस्वरूप शर्मा	बीएचएमएस/12 इ. प्र. वि. दिल्ली	23	आर जेड-1ब्लॉक, मकान न०-158, वेस्ट सागरपुर गली न०-8सी, नई दिल्ली-110046	बीएचएसडी/4618 23.05.2013
140	डॉ. नूरुस सबा 281, जामा भरिजद, खुरेजी खास, दिल्ली-110051	पुत्री भोहमद इरफान	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	281, जामा भरिजद, खुरेजी खास, दिल्ली-110051	बीएचएसडी/4644 03.06.2013
141	डॉ. नितिन एच-1-430, जहांगीर पुरी, दिल्ली-110033	पुत्र श्री रामबीर	बीएचएमएस/12 दि. वि.	26	एच-1-430, जहांगीर पुरी, दिल्ली-110033	बीएचएसडी/4658 04.06.2013
142	डॉ. नकुल एच-1-430, जहांगीर पुरी, दिल्ली-110033	पुत्र श्री रामबीर	बीएचएमएस/12 दि. वि.	26	एच-1-430, जहांगीर पुरी, दिल्ली-110033	बीएचएसडी/4664 04.06.2013
143	डॉ. नाजिया निखत मकान न०-24ए, जेड-ब्लॉक, श्याम विहार नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	पुत्री खालिद अमीन अंसारी	बीएचएमएस/12 दि. वि.	22	मकान न०-24ए, जेड-ब्लॉक, श्याम विहार नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	बीएचएसडी/4680 17.06.2013
144	डॉ. नेहा जोशी 348, सेकण्ड फ्लॉर गेट न०-2, हकीकत नगर किंगस्वे कैम्प, दिल्ली-110009	पुत्री श्री रोहित कुमार जोशी	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	348, सेकण्ड फ्लॉर गेट न०-2, हकीकत नगर किंगस्वे कैम्प, दिल्ली-110009	बीएचएसडी/4698 01.08.2013
145	डॉ. निकिता नरेश डी-12 सिंडिकेट एन्कलेव, रघु नगर, नई दिल्ली-45	पुत्री डॉ. नरेश सिंह	बीएचएमएस/12 वी.आर.ए.वि. आगरा	23	डी-12 सिंडिकेट एन्कलेव, रघु नगर, नई दिल्ली-45	बीएचएसडी/4707 03.09.2013
146	डॉ. नेहा वर्मा, जेड-22, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23	पुत्री श्री यू. के. वर्मा	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	जेड-22, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-58	बीएचएसडी/4747 23.05.2014
147	डॉ. नव्वुर गुप्ता उद्धु.जेड-20 बाल उदयान रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री मदन लाल गुप्ता	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	उद्धु.जेड-20 बाल उदयान रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4751 26.05.2014
148	डॉ. निकिता जयन्त ई-ब्लॉक, मकान न० ९/६ दयालपुर, ३३-फीट रोड, नियर करावल नगर, दिल्ली-110094	पुत्री श्री किशन कुमार जयन्त	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	ई-ब्लॉक, मकान न० ९/६ दयालपुर, ३३-फीट रोड, नियर करावल नगर, दिल्ली-110094	बीएचएसडी/4757 26.05.2014
149	डॉ. नुजहत जहान आर-163/६ बटला हाउस जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-25	पुत्री श्री मो० नजर	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	आर-163/६ बटला हाउस जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी/4789 03.06.2014

150	डॉ. नीरु वर्मा पी-६६, पाण्डव नगर, मयूर विहार-१, दिल्ली-९१	पुत्री श्री प्रेम वर्मा बाबा फरीद. वि.	बीएचएमएस/०६	३०	पी-६६, पाण्डव नगर, मयूर विहार-१, दिल्ली-९१	बीएचएसडी/४८०० ०६.०६.२०१४
151	डॉ. निवेदिता मकान नं. सी-६५, शिव गती नानक चन्द, बस्ती, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-०३	पुत्री श्री ए. के. राय	बीएचएमएस/१३	२४	मकान नं. सी-६५, शिव गती नानक चन्द, बस्ती, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-०३	बीएचएसडी/४८३५ २५.०७.२०१४
152	डॉ. निकिता गुप्ता प्लॉट नं.-१७६, पाकेट सी-८, सेक्टर-८ रोहिणी, दिल्ली-८५	पुत्री श्री एन. के. गुप्ता	बीएचएमएस/१३	२४	फ्लैट नं.-१७६, पाकेट सी-८, सेक्टर-८ रोहिणी, दिल्ली-८५	बीएचएसडी/४८४० २८.०७.२०१४
153	डॉ. नीलिमा सिंह डी-११४९/बी, गली नं.-७, अशोक नगर शाहदरा, दिल्ली-११००९३	पुत्री श्री संतोष सिंह	बीएचएमएस/१३	२८	डी-११४९/बी, गली नं.-७, अशोक नगर शाहदरा, दिल्ली-११००९३	बीएचएसडी/४८४४ २८.०७.२०१४
154	डॉ. निकिता आरजेड-१९२, रोशन गार्डन नजफगढ़, नई दिल्ली-४३	पुत्री श्री राज सिंह गुलिया	बीएचएमएस/१३	२३	आरजेड-१९२, रोशन गार्डन नजफगढ़, नई दिल्ली-४३	बीएचएसडी/४८४६ २८.०७.२०१४
155	डॉ. निष्ठा राधा, ए२/२३, हनीमन एन्कलेव प्लॉट नं०-४०, सेक्टर-६, द्वारका, नई दिल्ली-७५	पत्नी डॉ. ईश्वर दास	डीएचएमएस केरला. का०	५८	ए२/२३, हनीमन एन्कलेव प्लॉट नं०-४०, सेक्टर-६, द्वारका, नई दिल्ली-७५	बीएचएसडी/४८६१ ३०.०७.२०१४
156	डॉ. प्रीति गुप्ता १३६-बी, गली न०-६, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-११००२९	पुत्री श्री अनिल गुप्ता	बीएचएमएस/१२	२४	१३६-बी, गली न०-६, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-११००२९	बीएचएसडी/४६१४ २३.०५.२०१३
157	डॉ. पूजा गुप्ता पी-१ मकान न०-४ फेस-१ नियर राधा मन्दिर बुद्ध विहार, दिल्ली-११००८६	पुत्री श्री बी. एन. गुप्ता	बीएचएमएस/१२	२४	पी-१ मकान न०-४ फेस-१ नियर राधा मन्दिर बुद्ध विहार, दिल्ली-११००८६	बीएचएसडी/४६१७ २३.०५.२०१३
158	डॉ. पुर्णिमा गुलाटी मकान न०-६८७, परमानन्द कॉलोनी (वेस्ट) दिल्ली-११०००९	पुत्री श्री जे. के. गुलाटी	बीएचएमएस/१२	२२	मकान न०-६८७, परमानन्द कॉलोनी (वेस्ट) दिल्ली-११०००९	बीएचएसडी/४६२४ २४.०५.२०१३
159	डॉ. पायल एफ-४९५, ब्लॉक-एफ, कर्मपुरा, नई दिल्ली-११००१५	पुत्री श्री पवन कुमार गुप्ता	बीएचएमएस/१२	२४	एफ-४९५, ब्लॉक-एफ, कर्मपुरा, नई दिल्ली-११००१५	बीएचएसडी/४६२५ २४.०५.२०१३
160	डॉ. पुर्णिमा सुरी रोड न०-२५, मकान न०-४, पंजाबी बाग एक्सटेशन नई दिल्ली-११००२६	पुत्री श्री सुनील सूरी	बीएचएमएस/१२	२४	रोड न०-२५, मकान न०-४, पंजाबी बाग, एक्सटेशन नई दिल्ली-११००२६	बीएचएसडी/४६३२ २४.०५.२०१३
161	डॉ. प्राची शर्मा ११९३/८१, शान्ति नगर, त्रिनगर, दिल्ली-११००३५	पुत्री श्री अम्बरीश कुमार	बीएचएमएस/१२	२४	११९३/८१, शान्ति नगर, त्रिनगर, दिल्ली-११००३५	बीएचएसडी/४६५३ ०३.०६.२०१३
182	डॉ. पारुल शर्मा १४४९/सी-७, गली न०-७, दुर्गापुरी, लोनी रोड शाहदरा, दिल्ली-९३	पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा	बीएचएमएस/१०	२४	१४४९/सी-७, गली न०-७, दुर्गापुरी, लोनी रोड शाहदरा, दिल्ली-९३	बीएचएसडी/४५७३ ०१.०४.२०१३

163	डॉ. पारुल कश्यप सी-59, सेनिक नगर नियर नवादा मैट्रो स्टेशन उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री लोकपाल सिंह	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	सी-59, सेनिक नगर नियर नवादा मैट्रो स्टेशन उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4660 04.06.2013
164	डॉ. प्रीति भाटिया 144, कल्याण विहार, नई दिल्ली-110009	पुत्री श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	144, कल्याण विहार, नई दिल्ली-110009	बीएचएसडी/4675 10.08.2013
165	डॉ. प्रीति प्रभा हैप्पी लैंडिंग एफडब्ल्यूडब्ल्यूए, गर्लस हॉस्टल सुबरोतो पार्क, नई दिल्ली-110010	पुत्री श्री अभेय नन्दन मिश्रा	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	22	हैप्पी लैंडिंग एफ डब्ल्यू डब्ल्यू ए, गर्लस हॉस्टल सुबरोतो पार्क, नई दिल्ली-110010	बीएचएसडी/4684 03.07.2013
166	डॉ. पारुल गुप्ता ई-735 लोहिया गली मेन रोड, बाबरपुर, शाहदरा दिल्ली-110032	पुत्री श्री प्रदीप कुमार	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	ई-735 लोहिया गली मेन रोड, बाबरपुर, शाहदरा दिल्ली-110032	बीएचएसडी/4696 01.08.2013
167	डॉ. पियुषी गुप्ता बी-3/124 परिचम विहार, नई दिल्ली-110063	पुत्री श्री नरेश गुप्ता	बीएचएमएस/11 बी.आर.ए.वि. विहार	24	बी-3/124 परिचम विहार, नई दिल्ली-110063	बीएचएसडी/4713 04.09.2013
168	डॉ. पवनीत कौर ए-134, द्वितीय तल डबल स्टोरी, कालकाजी, नई दिल्ली-19	पुत्री स्व० श्री रविन्द्र सिंह	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	ए-134, द्वितीय तल डबल स्टोरी, कालकाजी, नई दिल्ली-19	बीएचएसडी/4752 26.05.2014
169	डॉ. पूजा शर्मा 16/183 ई-ब्लॉक टैक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-05	पुत्री श्री जीवन शर्मा	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	16/183 ई-ब्लॉक टैक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-05	बीएचएसडी/4756 26.05.2014
170	डॉ. पूजा ए-704 नौरतन अपाठो सेक्टर-23, पलोट-74, झारका, नई दिल्ली-110075	पुत्री डॉ. बलराम शर्मा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	ए-704 नौरतन अपाठो सेक्टर-23, पलोट-74, झारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएसडी/4781 03.06.2014
171	डॉ. पिया खण्डेलवाल डी-26, शकरपुर, दिल्ली-92	पुत्री श्री मुकेश खण्डेलवाल	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	डी-26, शकरपुर, दिल्ली-92	बीएचएसडी/4793 04.06.2014
172	डॉ. प्रियाकाष्ठा मलिक 193/169 राजपुर खुर्द एक्स. नियर सरकारी प्राइमरी, स्कूल, छत्तरपुर, महरोली, नई, दिल्ली-68	पुत्री श्री श्याम मलिक	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	193/169 राजपुर खुर्द एक्स. नियर सरकारी प्राइमरी स्कूल छत्तरपुर, महरोली, नई, दिल्ली-68	बीएचएसडी/4796 05.06.2014
173	डॉ. पवन कुमार सिंह एन-7/8 ब्लॉक-एन, जेजे कालोनी-3 नागलोई, दिल्ली	पुत्री श्री धीरेन्द्र पाल सिंह	बीएचएमएस/13 बी.आर.ए. वि. आगरा	25	एन-7/8 ब्लॉक-एन, जेजे कालोनी-3 नागलोई, दिल्ली	बीएचएसडी/4801 06.06.2014
174	डॉ. पारुल गोयल 24, द्वितीय तल, ईस्ट एवन्यू रोड, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26	पुत्री श्री पवन कुमार गोयल	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	24, द्वितीय तल, ईस्ट एवन्यू रोड, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26	बीएचएसडी/4806 10.06.2014

175	डॉ. प्रीति यादव आरजेडएफ-21 गली नं 31 सी साध नगर पार्ट-2 पालम कालोनी, नई दिल्ली-45	पुत्री श्री प्रकाश चन्द्रा यादव	बीएचएमएस / 13 दि.वि.	24	आरजेडएफ-21 गली नं 31 सी साध नगर पार्ट-2 पालम कालोनी, नई दिल्ली-45	बीएचएसडी / 4808 10.06.2014
176	डॉ. प्रीति छज्जर 14-सिंहार्थ एन्कलेव आश्रम चौक, नई दिल्ली-14	पुत्री श्री उमेद कुमार छज्जर	बीएचएमएस / 13 दि.वि.	23	14-सिंहार्थ एन्कलेव आश्रम चौक, नई दिल्ली-14	बीएचएसडी / 4810 16.06.2014
177	डॉ. पिकेष कुमारी सी-262, गेट नं 10, घड़ोली एक्स०, दिल्ली-96	पुत्र श्री विजय सिंह	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	24	सी-262, गेट नं 10, घड़ोली एक्स०, दिल्ली-96	बीएचएसडी / 4829 23.07.2014
178	डॉ. पूनम तंवर 94-बी. रिठाला (गांव) नियर पोस्ट आफिस, दिल्ली-110085	पुत्री श्री रोहताश सिंह	बीएचएमएस / 13 दि. वि.	23	94-बी. रिठाला (गांव) नियर पोस्ट आफिस, दिल्ली-110085	बीएचएसडी / 4851 28.07.2014
179	डॉ. रिन्कू एस-18, वसन्त एन्कलेव, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057	पुत्री श्री फागु लाल	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	25	एस-18, वसन्त एन्कलेव, वसन्त विहार नई दिल्ली-110057	बीएचएसडी / 4587 21.05.2013
180	डॉ. रीचा गोयल 1/206/42 सदर बजार, दिल्ली कैट-10	पुत्री श्री दिनेश गोयल	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	1/206/42 सदर बजार, दिल्ली कैट-10	बीएचएसडी / 4594 22.05.2013
181	डॉ. रुचिका महाजन ए-2/149, सैक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85	पुत्री श्री मोती सागर	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	ए-2/149, सैक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी / 4596 22.05.2013
182	डॉ. राजिया खातुन मकान नं 0-78, चौथी मंजिल तीसरी लाईन, जोहरी फार्म नूर नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर, ओखला नई दिल्ली-110025	पुत्री श्री शमशूदीन खान	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	मकान नं 0-78, चौथी मंजिल तीसरी लाईन, जोहरी फार्म नूर नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर, ओखला नई दिल्ली-110025	बीएचएसडी / 4613 23.05.2013
183	डॉ. राशी प्रकाश एफ-109, ईस्ट ऑपफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	पुत्री श्री प्रकाश सी जैन	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	एफ-109, ईस्ट ऑपफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	बीएचएसडी / 4633 27.05.2013
184	डॉ. रोशनी अहमद एफ-101, शाहीन बाग, अबुल फजल एन्कलेव-2 ओखला जामिया नगर, नई दिल्ली-25	पुत्री श्रीहमद अहमद	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	एफ-101, शाहीन बाग, अबुल फजल एन्कलेव-2 ओखला जामिया नगर, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी / 4637 27.05.2013
185	डॉ. रिया बिस्वास टाईप-3, क्वार्टर नं 82, नार्थ वेस्ट, मोती बाग नई दिल्ली-110021	पुत्री श्री राजेन्द्र बिस्वास	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	टाईप-3, क्वार्टर नं 82, नार्थ वेस्ट, मोती बाग नई दिल्ली-110021	बीएचएसडी / 4640 27.05.2013
186	डॉ. राम नाथ पाल पी-2/206 सुलतान पुरी, नई दिल्ली-110086	पुत्री श्री बाबू राम पाल	बीएचएमएस / 11 बी.आर.ए.वि. बिहार	37	पी-2/206 सुलतान पुरी, नई दिल्ली-110086	बीएचएसडी / 4690 19.07.2013

187	डॉ. राम कुमार ए-780, भीत नगर शाहदरा, दिल्ली-94	पुत्री श्री डोरी लाल	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	25	ए-780, भीत नगर शाहदरा, दिल्ली-94	बीएचएसडी/4704 30.08.2013
188	डॉ. राज कुमार सेनी 10ए/55, त्रिलोकपुरी, दिल्ली-91	पुत्र श्री राम किशोर सेनी	बीएचएस/11 बी.आर.ए.वि. आगरा	26	10ए/55, त्रिलोकपुरी, दिल्ली-91	बीएचएसडी/4708 03.09.2013
189	डॉ. रजनी राना 404, पॉकेट-1, सैकटर-12, गंगोत्री अपार्टमेंट्स, द्वारका, नई दिल्ली-110075	पुत्री श्री एम. पी. एस. राना	बीएचएस/12 दि. वि.	25	404, पॉकेट-1, सैकटर-12, गंगोत्री अपार्टमेंट्स, द्वारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएसडी/4723 01.10.2013
190	डॉ. रघुता त्रिपाठी एफ-39/ए, गली नं0-2 वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली	पुत्री श्री गिरीश चन्द्र त्रिपाठी	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	एफ-39/ए, गली नं0-2 वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली	बीएचएसडी/4755 26.05.2014
191	डॉ. लूपाली चौहान आरजेड-123/313, गली नं0 2 गीतांजली पार्क वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046	पुत्री श्री राजपाल चौहान	बीएचएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	आरजेड-123/313, गली नं0 2 गीतांजली पार्क वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046	बीएचएसडी/4762 27.05.2014
192	डॉ. रेनू वर्मा ए-2/159-बी, मयूर विहार-3, दिल्ली-96.	पुत्री श्री राम सिंह	बीएचएस/13 दि. वि.	26	ए-2/159-बी, मयूर विहार-3, दिल्ली-96	बीएचएसडी/4766 02.06.2014
193	डॉ. रिचा शरेरा 141ए, पॉकेट जे एव के, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95	पुत्री श्री एच.के. शरेरा	बीएचएस/13 दि. वि.	23	141ए, पॉकेट जे एव के, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95	बीएचएसडी/4774 02.06.2014
194	डॉ. रोशनी सी-7/2, गली नं0 27, प्रथम तल, महेन्द्रा पार्क, नियर आदर्श नगर, दिल्ली-33	पुत्री श्री धर्म नारायण सिंह	बीएचएस/13 दि. वि.	23	सी-7/2, गली नं0 27, प्रथम तल, महेन्द्रा पार्क, नियर आदर्श नगर, दिल्ली-33	बीएचएसडी/4775 03.06.2014
195	डॉ. राधी शर्मा 1/9610, बहेल गली, बाबरपुर रोड, वेस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	पुत्री श्री राधे श्याम शर्मा	बीएचएस/13 दि. वि.	23	1/9610, बहेल गली, बाबरपुर रोड, वेस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएसडी/4785 03.06.2014
196	डॉ. रीतिका सिंधल 9ए/62, डब्ल्युइए, करोल बाग, दिल्ली-05	पुत्री श्री सुभाष सिंधल	बीएचएस/13 दि. वि.	23	8ए/62, डब्ल्युइए, करोल बाग, दिल्ली-05	बीएचएसडी/4792 04.06.2014
197	डॉ. रीतुपर्णा संतरा 53/65, द्वितीय तल, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-05	पुत्री श्री स्वरूप संतरा	बीएचएस/13 दि. वि.	24	53/65, द्वितीय तल, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-05	बीएचएसडी/4809 10.06.2014
198	डॉ. राहुल कुमार सिंह ए-1/157, सैकटर-6, रोहिणी, दिल्ली-85	पुत्र श्री हुकूम सिंह	बीएचएस/13 दि. वि.	24	ए-1/157, सैकटर-6, रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी/4814 24.06.2014
199	डॉ. रेवती के. केमल 46/2डी, सैकटर-2, डीआईजेड एरिया गोल मार्केट, नई दिल्ली-01	पुत्री श्री पी.के. कमल	बीएचएस/13 दि. वि.	23	46/2डी, सैकटर-2, डीआईजेड एरिया गोल मार्केट, नई दिल्ली-01	बीएचएसडी/4818 03.07.2014

200	डॉ. रियाजुद्दीन डी-18/9, ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	पुत्र श्री अब्दुल रशीद	बीएचएमएस/11 वी.आर.ए. वि. विहार	42	डी-18/9, ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी/4822 07.07.2014
201	डॉ. रंजना विश्वकर्मा बी-49, शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	पुत्री श्री मोहन विश्वकर्मा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	26	बी-49, शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	बीएचएसडी/4825 18.07.2014
202	डॉ. रिया वर्मा, जे-एन 21 ए, द्वितीय तल आर्या समाज रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	पुत्री श्री धूम सिंह वर्मा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	26	सी-422 द्वितीय तल, मोहन गली नानक चन्द बस्ती कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4827 23.07.2014
203	डॉ. रामकेश मीणा, एल-2/62 बी डीडीए फ्लेट कालकाजी, नई दिल्ली-24	पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	26	एल-2/62 बी डीडीए फ्लेट कालकाजी, नई दिल्ली-24	बीएसएसडी/4831 23.07.2014
204	डॉ. रितोष कुमार सी-65, शिव गली नानक चन्द, बस्ती, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-03	पुत्र श्री विजेश्वर यादव	बीएचएमएस/13 दि. वि.	30	सी-65, शिव गली नानक चन्द, बस्ती, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-03	बीएचएसडी/4836 25.07.2014
205	डॉ. राजासुल काश्मी ई-22, ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	पुत्र मोहम्मद हाशिम	बीएचएमएस/13 दि. वि.	25	ई-22, ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी/4838 25.07.2014
206	डॉ. रोहित जैन 162 एवं 163, प्लॉट नं-9 प्रथम तल वर्धमान प्लाजा-3, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	पुत्र श्री एसो पी० जैन	बीएचएमएस/98 बरकतउल्लाह.वि. भोपाल	41	162 एवं 163, प्लॉट नं-9 प्रथम तल वर्धमान प्लाजा-3, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	बीएचएसडी/4854 28.07.2014
207	डॉ. राकेश ठक्कर फ्लॅट नं.-121, अपनानिवास, सेक्टर-1 पॉकेट-2, द्वारका, नई दिल्ली-110075	पुत्र श्री रमनभाई ठक्कर	बीएचएमएस/03 विक्रम.वि.उज्जेन	50	फ्लॅट नं.-121, अपनानिवास, सेक्टर-1 पॉकेट-2, द्वारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएसडी/4857 28.07.2014
208	डॉ. संजय कुमार शर्मा ए-85-ई, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095	पुत्र श्री गया प्रसाद शर्मा	बीएचएमएस/10 वी.आर.ए.वि. विहार	34	ए-85 ई, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095	बीएचएसडी/4572 01.04.2013
209	डॉ. साकशी तलवार डी-3/4 राना प्रताप बाग, दिल्ली-110007	पुत्री श्री अमरजीत तलवार	बीएचएमएस/10 डी.एन.यू. रोहतक	24	डी-3/4 राना प्रताप बाग, दिल्ली-110007	बीएचएसडी/4575 04.04.2013
210	डॉ. सोनिया शर्मा मकान नं0-304 डी, बजार पन्ना, गांव पी.ओ. कराला, दिल्ली-110081	पुत्री श्री रघु श्याम	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	24	मकान नं0-304 डी, बजार पन्ना, गांव पी.ओ. कराला, दिल्ली-110081	बीएचएसडी/4588 21.05.2013
211	डॉ. सुमित सिंह रावत ए-176, मोती बाग-1, नई दिल्ली-110021	पुत्र श्री मनोहर सिंह रावत	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	ए-176, मोती बाग-1, नई दिल्ली-110021	बीएचएसडी/4589 21.05.2013

212	डॉ. शिवा बिष्ट 1-डी, पॉकेट-ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110085	पुत्री श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	1-डी, पॉकेट-ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095	बीएचएसडी/4592 22.05.2013
213	डॉ. शैली गोखले जी.एच-5 डी-7, फ्लैट नं०-1144, पश्चिम विहार नई दिल्ली-110087	पुत्री श्री रमेश गोखले	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	जी.एच-5 डी-7, फ्लैट नं०-1144, पश्चिम विहार नई दिल्ली-110087	बीएचएसडी/4605 22.05.2013
214	डॉ. संगीता रानी आर-207, ए वानी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	पुत्री श्री डोरी लाल	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	आर-207, ए वानी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059	बीएचएसडी/4606 22.05.2013
215	डॉ. सुकुर्ति गम्भीर 108-एल आई जी फ्लैट्स, हस्थसाल, नई दिल्ली-59	डॉ. श्री सुबोध गम्भीर	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	108-एल आई जी फ्लैट्स, हस्थसाल, नई दिल्ली-59	बीएचएसडी/4616 23.05.2013
216	डॉ. सुनील कुमार मीना ओडी-2 रेडियो कॉलोनी, किंगसवे कैम्प, दिल्ली-09	पुत्र श्री हरी सिंह मीना	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	31	ओडी-2 रेडियो कॉलोनी, किंगसवे कैम्प, दिल्ली-09	बीएचएसडी/4619 23.05.2013
217	डॉ. शशान्क बंसल एच-2, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	पुत्र डॉ. रविन्द्र कुमार गुप्ता	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	23	एच-2, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	बीएचएसडी/4622 24.05.2013
218	डॉ. सुरी 1686, दिल्ली प्रशासन, फ्लैट्स, टाईप-4 गुलाबी बाग, दिल्ली-110007	पुत्री श्री नवल गुप्ता	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	1686, दिल्ली प्रशासन, फ्लैट्स, टाईप-4 गुलाबी बाग, दिल्ली-110007	बीएचएसडी/4627 24.05.2013
219	डॉ. शिल्पा मकान न०-390, चिल्ला गांव पी. ओ. पटपड़गंज दिल्ली-110091	पुत्री श्री सुशील कुमार	बीएचएमएस/12 दि. वि.	22	मकान न०-390, चिल्ला गांव पी. ओ. पटपड़गंज दिल्ली-110091	बीएचएसडी/4630 24.05.2013
220	डॉ. साक्षी गुप्ता एच-80, शकरपुर, दिल्ली-110092	पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	एच-80, शकरपुर, दिल्ली-110092	बीएचएसडी/4642 31.05.2013
221	डॉ. सोनल मकान न०-14, नियर देवी मन्दिर, रिठाला गांव दिल्ली-110085	पुत्री श्री गुलाब सिंह	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	मकान न०-14, नियर देवी मन्दिर, रिठाला गांव दिल्ली-110085	बीएचएसडी/4646 03.06.2013
222	डॉ. सरिता गोला 185, छतरपुर गांव, नई दिल्ली	पुत्री श्री मूलचन्द गोला	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	185, छतरपुर गांव, नई दिल्ली	बीएचएसडी/4649 03.06.2013
223	डॉ. संध्या फ्लैट न०-126, पॉकेट-बी-9, सैकटर-3, रोहिणी दिल्ली-110085	पुत्री श्री राजबीर सिंह	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	फ्लैट न०-126, पॉकेट-बी-9, सैकटर-3, रोहिणी दिल्ली-110085	बीएचएसडी/4656 04.06.2013
224	डॉ. सरिष्टी घिलियाल 852, टाईप-4, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली-23	पुत्री श्री डी. सी. घिलियाल	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	852, टाईप-4, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली-23	बीएचएसडी/4665 04.06.2013

225	डॉ. सिद्धार्थ बी-4/124 यमुना विहार, दिल्ली-110053	पुत्र श्री आई. डी. सिंह	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि.दिल्ली	25	बी-4/124 यमुना विहार, दिल्ली-110053	बीएचएसडी/4668 04.06.2013
226	डॉ. राशि कुमार मकान न0-6, मुनिरका गांव, नई दिल्ली-110067	पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	मकान न0-6, मुनिरका गांव, नई दिल्ली-110067	बीएचएसडी/4672 10.06.2013
227	डॉ. संजीव कुमार बी-6/1, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029	पुत्र श्री राज कुमार शर्मा	बीएचएमएस/08 जे.आर.ए.न. वि राज	23	बी-6/1, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029	बीएचएसडी/4678 13.06.2013
228	डॉ. साक्षी शर्मा बी-ब्लाक, बी-14, एस-1, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095	पुत्री श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	बी-ब्लाक, बी-14, एस-1, दिलशाद गार्डन दिल्ली-110095	बीएचएसडी/4679 17.06.2013
229	डॉ. सरिता कुशवाहा मकान न0-25, गली न0-2, पार्ट-3 मिठापुर एक्सटेंशन, बद्रपुर, नई दिल्ली-110044	पुत्री श्री राजा राम कुशवाहा	बीएचएमएस/12 बी.आर.ए.वि विहार	36	मकान न0-25, गली न0-2, पार्ट-3 मिठापुर एक्सटेंशन, बद्रपुर, नई दिल्ली-110044	बीएचएसडी/4682 20.06.2013
230	डॉ. शेफाली कपूर सी-25/ बी कालकाजी, नई दिल्ली-110019	पुत्री श्री प्रेम शरन कपूर	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	सी-25/ बी कालकाजी, नई दिल्ली-110019	बीएचएसडी/4691 22.07.2013
231	डॉ. साहिंवा कोर सयाल पॉकेट जी-6, मकान न0-6 व 7, सैक्टर-2 रोहिणी, नई दिल्ली-110085	पुत्री श्री हरमोहन पाल सिंह सयाल	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	पॉकेट जी-6, मकान न0-6 व 7, सैक्टर-2 रोहिणी, नई दिल्ली-110085	बीएचएसडी/4693 01.08.2013
232	डॉ. सुमित कुमार ए-8/629 ईस्ट गोकल पुर, लोगी रोड, दिल्ली-94	पुत्र श्री सोहन पाल	बीएचएमएस/12 दि. वि.	27	ए-8/629 ईस्ट गोकल पुर, लोगी रोड, दिल्ली-94	बीएचएसडी/4694 01.08.2013
233	डॉ. सरिता सोनी 94, शकरपुर, नियर संजय पार्क, दिल्ली-92	पुत्री श्री तारा चन्द	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	94, शकरपुर, नियर संजय पार्क, दिल्ली-92	बीएचएसडी/4695 01.08.2013
234	डॉ. संजीव कुमार 434 ए/7 मिठापुर एक्सटेंशन-2, नियर एम. सी. डी रक्खूल, बद्रपुर, नई दिल्ली-110044	पुत्र श्री मुख्तियार सिंह	बीएचएमएस/12 दि. वि.	24	434 ए/7 मिठापुर एक्सटेंशन-2, नियर एम.सी.डी. रक्खूल, बद्रपुर, नई दिल्ली-110044	बीएचएसडी/4697 01.08.2013
235	डॉ. सतिन्द्र कौर सी-545 रिशि नगर, शकुर बरती, नई दिल्ली-34	पुत्री श्री बलदीर सिंह	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	सी-545 रिशि नगर, शकुर बरती, नई दिल्ली-34	बीएचएसडी/4700 01.08.2013
236	डॉ. संगीता सिंह 69ए, गली न0-4 कुन्दन नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	पुत्री श्री बेगराज सिंह	बीएचएमएस/98 कल. वि.	38	69ए, गली न0-4 कुन्दन नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	बीएचएसडी/4702 23.08.2013

237	डॉ. सर्व प्रिया 24/92-ए, तिलक नगर, नई दिल्ली-110016	पुत्री श्री देव प्रकाश मलिक	बीएचएमएस/09 वा. फरीद वि.	24	24/92-ए, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018	बीएचएसडी/4705 02.09.2013
238	डॉ. साकशी जैन सी-9/135, यमुना विहार, दिल्ली-110053	पुत्री श्री अजय जैन	बीएचएमएस/12 बीवीडीयू/पुणे	25	सी-9/135, यमुना विहार, दिल्ली-110053	बीएचएसडी/4706 02.09.2013
239	डॉ. सन्दीप कुमार मकान नो-170, गली नो-1, संजय कॉलोनी नरेला, दिल्ली-110040	पुत्र श्री अमन सिंह	बीएचएमएस/12 बी.आर.ए.वि. आगरा	29	मकान नो-170, गली नो-1, संजय कॉलोनी नरेला, दिल्ली-110040	बीएचएसडी/4715 04.09.2013
240	डॉ. श्रेय भारत 115, मस्तिष्ठ मोठ, नई दिल्ली-110049	पुत्र श्री देव राज	बीएचएमएस/12 बी.आर.ए.वि. आगरा	24	115, मस्तिष्ठ मोठ, नई दिल्ली-110049	बीएचएसडी/4716 04.09.2013
241	डॉ. समीक्षा शर्मा डी-42, एम.सी.डी. स्टॉफ कॉलोनी, डी-ब्लाक न्यू उम्मानपुर, दिल्ली-110053	पुत्री श्री एम. पी. शर्मा	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	डी-42, एम. सी. डी. स्टॉफ कॉलोनी, डी-ब्लाक न्यू उम्मानपुर, दिल्ली-110053	बीएचएसडी/4718 26.09.2013
242	डॉ. शिल्पी गौतम मकान नो-14-बी, गली नो-2, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	पुत्री श्री सुन्दर पाल सिंह	बीएचएमएस/12 दि. वि.	26	मकान नो-14-बी, गली नो-2, भोलानाथ नगर शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएसडी/4719 26.09.2013
243	डॉ. स्वेता त्यागी मकान नो-22 गली नो-2, भगवान पार्क, झड़ोदा माजरा, बुराडी नाथ दिल्ली-110084	पुत्री श्री अनिल कुमार त्यागी	बीएचएमएस/11 जी.आर.ए.वि. पंजाब	23	मकान नो-22 गली नो-2, भगवान पार्क, झड़ोदा माजरा, बुराडी नाथ दिल्ली-110084	बीएचएसडी/4727 06.12.2013
244	डॉ. संगीता जयसवाल मकान नो-294, ग्राउण्ड फ्लोर, परमानन्द कॉलोनी दिल्ली-110009	पुत्री श्री मुख्ती प्रसाद जायसवाल	बीएचएमएस/11 कुमाऊं. वि. नेनीताल	30	मकान नो-294, ग्राउण्ड फ्लोर, परमानन्द कॉलोनी दिल्ली-110009	बीएचएसडी/4733 10.02.2014
245	डॉ. शिवानी दलाल मकान नो-366-ए, गांव मुनिरका, पो.ओ.जे.एन.यू नई दिल्ली-110067	पुत्री श्री काली चरन सिंह	बीएचएमएस/05 पंजाब. वि.	31	मकान नो-366-ए, गांव मुनिरका, पो.ओ.जे.एन.यू नई दिल्ली-110067	बीएचएसडी/4734 18.02.2014
246	डॉ. स्वाती बस्सी, 85-33, गली नो 4 शास्त्री पार्क, कृष्ण नगर, दिल्ली-51	पुत्र श्री रामेश बन्दर बस्सी	बीएचएमएस/07 जे0आर0एन0 वि० राज	33	85-33, गली नो 4 शास्त्री पार्क, कृष्ण नगर, दिल्ली-51	बीएचएसडी/4739 21.04.2014
247	डॉ. रेट्फी एस. साम, सी-7/141 एसडीए हौज खास, नई, दिल्ली-16	पुत्री श्री साम वरगां	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	23	सी-7/141 एसडीए हौज खास, नई, दिल्ली-16	बीएचएसडी/4742 23.05.2014
248	डॉ. स्वाती गोयल बी-25/2, हिंटीय तल, शुभम एन्कलेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63	पुत्री श्री आर.के. गोयल	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	बी-25/2, हिंटीय तल, शुभम एन्कलेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63	बीएचएसडी/4750 23.05.2014

249	डॉ. सोनिया 16/561 एच बापा नगर, हरियाणा सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	पुत्री श्री अशोक कुमार	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	16/551 एच बापा नगर, हरियाणा सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	बीएचएसडी/4753 26.05.2014
250	डॉ. सोनिया भीना प्लैट नं० 635, डीए-ब्लाक, एसएफएस प्लैट, शालीमार बाग, दिल्ली-88	पुत्री श्री लक्ष्मपत्र राम भीना	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	प्लैट नं० 635, डीए-ब्लाक, एसएफएस प्लैट, शालीमार बाग, दिल्ली-88	बीएचएसडी/4754 26.05.2014
251	डॉ. सुशमा स्टाफ क्वार्टर नं० 15/7, एयर फोर्स स्टेशन नारायणा बरार स्क्वायर दिल्ली केन्ट-110010	पुत्री श्री एच० एच० नेगी	बीएचएमएस/12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	स्टाफ क्वार्टर नं० 15/7, एयर फोर्स स्टेशन नारायणा बरार स्क्वायर, दिल्ली केन्ट-110010	बीएचएसडी/4759 26.05.2014
252	डॉ. स्वाती भारद्वाज 498, हवेली हेदर कुली, चादनी चौक, दिल्ली-06	पुत्री श्री वी०एन० राकेश भारद्वाज	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	498, हवेली हेदर कुली, चादनी चौक, दिल्ली-110006	बीएचएसडी/4768 02.06.2014
253	डॉ. स्वेता मिश्रा 13/6/2, वायुसेनाबाद, स्वागत अर्पा० प्लैट, नं०-3, प्रथम तल, तिगरी तुगलाबाद, नई दिल्ली-110062	पुत्री श्री शेलेन्ड कुमार मिश्रा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	22	13/6/2, वायुसेनाबाद, स्वागत अर्पा० प्लैट, नं०-3, प्रथम तल, तिगरी तुगलाबाद, नई दिल्ली-110062	बीएचएसडी/4769 25.05.2012
254	डॉ. सुमेता मिश्रा 13-बी, डीडीए जनता प्लैट, मंगलाचूरी, पालम कालोनी, नई दिल्ली-45	पुत्री रम. श्री सुधकर मिश्रा	बीएचएमएस/13 दि. वि.	28	13-बी, डीडीए जनता प्लैट, मंगलाचूरी, पालम कालोनी, नई दिल्ली-45	बीएचएसडी/4771 02.06.2014
255	डॉ. स्वाती पाण्डे एफ-35/1, प्लैट नं. बी० 2, गली नं० 16डी, साध नगर, पालम कालोनी नई दिल्ली-110045	पुत्री श्री राधे श्याम पाण्डे	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	एफ-35/1, प्लैट, नं. बी० 2, गली नं० 16डी, साध नगर, पालम कालोनी नई दिल्ली-110045	बीएचएसडी/4773 02.06.2014
256	डॉ. सोनिका गुप्ता बी-61 रामा पार्क, नियर द्वारका मोर मैट्रो स्टेशन, दिल्ली	पुत्री श्री जी०डी० गुप्ता	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	बी-61 रामा पार्क, नियर द्वारका मोर मैट्रो स्टेशन,, दिल्ली	बीएचएसडी/4779 03.06.2014
257	डॉ. स्नेहा नागपाल 2022, पार्क रायल अर्पा० प्लैट-10ए, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-75	पुत्री श्री दीपक नागपाल	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	2022, पार्क रायल अर्पा० प्लैट-10ए, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-75	बीएचएसडी/4780 03.06.2014
258	डॉ. संद्या सी-431 अलबर्ट स्क्वायर गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001	पुत्र श्री महेश राम	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	सी-431 अलबर्ट स्क्वायर गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001	बीएचएसडी/4782 03.06.2014
259	डॉ. श्रेयन एलिजाबेथ पाल जे-141,एसएफ, द्वितीय तल, साकेत, नई दिल्ली-95	पुत्री श्री शाहजी पाल	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	जे-141,एसएफ, द्वितीय तल, साकेत, नई दिल्ली-95	बीएचएसडी/4794 04.06.2014
260	डॉ. सोम्या अवस्थी जे-12/79 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-51	पुत्री डॉ. आशिश अवस्थी	बीएचएमएस/13 दि. वि.	24	जे-12/79 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-51	बीएचएसडी/4799 05.06.2014

261	डॉ. शेख फारीदा नशीर अहमद सी-6/307 यमुना विहार, दिल्ली-53	पुत्री श्री नशीर अहमद शेख	डीएचएमएस / 89 47 महाराष्ट्र, कांउठ	सी-6/307 यमुना विहार, दिल्ली-53	बीएचएसडी / 4812 17.06.2014
262	डॉ. शेलेश कुमार एनडब्ल्यू-23बी, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-18	पुत्र श्री विजय कुमार गुप्ता	बीएचएमएस / 12 29 दुर्गावली, वि. जबलपुर	एनडब्ल्यू-23-1, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-18	बीएचएसडी / 4815 25.06.2014
263	डॉ. शिखा गांधी क्वार्टर नं० एफ-5, रोड नं० 2 एन्ड्रेज गंज, नई दिल्ली-49	पुत्री श्री सुभाष गांधी	बीएचएमएस / 13 23 दि. वि.	क्वार्टर नं० एफ-5, रोड नं० 2 एन्ड्रेज गंज, नई दिल्ली-49	बीएचएसडी / 4817 02.07.2014
264	डॉ. सलेह मोहसीन डी-102/1, शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	पुत्री मो० मोहसीन	बीएचएमएस / 13 23 दि. वि.	डी-102/1, शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	बीएचएसडी / 4819 03.07.2014
265	डॉ. सयदा हाडिया निजामी 32 हजरत निजामुददीन वेस्ट, नई दिल्ली-13	पुत्री श्री सयद सलीम निजामी	बीएचएमएस / 13 23 दि. वि.	32 हजरत निजामुददीन वेस्ट, नई दिल्ली-13	बीएचएसडी / 4820 03.07.2014
266	डॉ. शालिनी मलहोत्रा ई-43 लाजपत नगर द्वितीय, नई दिल्ली-24	पुत्री श्री आर. के. मलहोत्रा	बीएचएमएस / 13 24 दि. वि.	ई-43 लाजपत नगर द्वितीय, नई दिल्ली-24	बीएचएसडी / 4834 23.07.2014
267	डॉ. सोम्या शर्मा एफ-156/3, रोड नं.-3, एन्ड्रेजगंज, नई दिल्ली-49	पुत्री श्री ऐ.के. शर्मा	बीएचएमएस / 13 23 दि. वि.	एफ-156/3, रोड नं.-3, एन्ड्रेजगंज, नई दिल्ली-49	बीएचएसडी / 4839 28.07.2014
268	डॉ. रघुती मकान नं.-193, डी-12, सेक्टर-8 रोहिणी, दिल्ली-85	पुत्री श्री श्याम सुदर	बीएचएमएस / 13 23 दि. वि.	मकान नं.-193, डी-12, सेक्टर-8 रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएसडी / 4841 28.07.2014
269	डॉ. सीमा जायसवाल 55-एफ, पाकेट-3, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-91	पुत्री श्री ताडक नाथ गुप्ता	बीएचएमएस / 02 38 कलकत्ता, वि.	55-एफ, पाकेट-3, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-91	बीएचएसडी / 4855 28.07.2014
270	डॉ. शिल्पा ढल्ल 394, दिल्ली गेट बाजार दरयागंज, दिल्ली-110002	पुत्री श्री रोहताश सिंह	बीएचएमएस / 13 23 दि. वि.	394, दिल्ली गेट बाजार दरयागंज, दिल्ली-110002	बीएचएसडी / 4856 28.07.2014
271	डॉ. शशि प्रभा राय 8ए प्लाट नं.-8, भारत गार्डन गली नं० 1, मटियाला रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	पुत्री श्री अंगद राय	बीएचएमएस / 12 34 बी.आर.ए.वि. विहार	8ए प्लाट नं.-8, भारत गार्डन गली नं० 1, मटियाला रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	बीएचएसडी / 4868 30.07.2014
272	डॉ. शिखा उपाध्याय पी538बी अर्जनगढ़ एयर फोर्स स्टेशन आया नगर, नई दिल्ली-57	पुत्री श्री श्याम सुदर उपाध्याय	बीएचएमएस / 13 24 दि. वि.	पी 538बी अर्जनगढ़ एयर फोर्स स्टेशन आया नगर, नई दिल्ली-57	बीएचएसडी / 4862 30.07.2014
273	डॉ. तरुन बोहरा फ्लैट न-29, नील कमल अपार्टमेंट, विकासपुरी नई दिल्ली-110018	पुत्र स्व० श्री हिम्मत सिंह बोहरा	बीएचएमएस / 12 27 इ.प्र.वि. दिल्ली	फ्लैट न-29, नील कमल अपार्टमेंट, विकासपुरी नई दिल्ली-110018	बीएचएसडी / 4580 17.05.2013

274	डॉ. तनवी खरबन्दा सी-401, पालम अपार्टमेंट्स, सैक्टर-5, प्लॉट-7 द्वारका, नई दिल्ली-110075	पुत्री श्री अनिल कुमार खरबन्दा	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि. दिल्ली	24	सी-401, पालम अपार्टमेंट्स, सैक्टर-5, प्लॉट-7 द्वारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएसडी / 4584 21.05.2013
275	डॉ. तेजरखनी वेदुला एफ-320, पोस्ट ऑफिस के पीछे नानकपुरा, नई दिल्ली-21	पुत्री श्री विस्वानादा शर्मा	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	एफ-320, पोस्ट ऑफिस के पीछे नानकपुरा, नई दिल्ली-110021	बीएचएसडी / 4631 24.05.2013
276	डॉ. तान्या अग्रवाल X / 3569, शान्ति मोहल्ला गली 0-4, रघुबार पुरा 0-2, गांधी नगर, दिल्ली-110031	पुत्री श्री अनिल अग्रवाल	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	X / 3569, शान्ति मोहल्ला गली 0-4, रघुबार पुरा 0-2, गांधी नगर, दिल्ली-110031	बीएचएसडी / 4662 04.06.2013
277	डॉ. उमा शंकर कुमार सी-23/ 21, शाहाबाद डेरी, दिल्ली-42	पुत्र श्री रामजीनिश शाहनी	बीएचएमएस / 11 बी.आर.ए. वि. बिहार	38	सी-23/ 21, शाहाबाद डेरी, दिल्ली-42	बीएचएसडी / 4823 07.07.2014
278	डॉ. वियेक पाहवा ए-248, सुर्दशन पार्क, नियर मोती नगर नई दिल्ली-110015	पुत्र श्री वी. के. पाहवा	बीएचएमएस / 12 इ. प्र. वि. दिल्ली	23	ए-248, सुर्दशन पार्क, नियर मोती नगर, नई दिल्ली-110015	बीएचएसडी / 4590 21.05.2013
279	डॉ. विमु मल्होत्रा डी-2ए/ 71-ए जनक पुरी, नई दिल्ली-110058	पुत्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	डी-2ए/ 71-ए जनक पुरी, नई दिल्ली-110058	बीएचएसडी / 4608 22.05.2013
280	डॉ. वसुधा एल-2 मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	पुत्री श्री गिरीश भरीहोके	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	एल-2 मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	बीएचएसडी / 4628 24.05.2013
281	डॉ. वर्षा सेवाल 56/ 4 महरोली, नई दिल्ली-110030	पुत्री श्री छोटे लाल सेवाल	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	56/ 4 महरोली, नई दिल्ली-110030	बीएचएसडी / 4636 27.05.2013
282	डॉ. वैशाली 234, गंगोत्री अपार्टमेंट्स, सैक्टर-12, पॉकेट-1 द्वारका, नई दिल्ली-110078	पुत्री श्री सुशील कुमार उप्रेती	बीएचएमएस / 12 इ.प्र.वि. दिल्ली	23	234, गंगोत्री अपार्टमेंट्स, सैक्टर-12, पॉकेट-1 द्वारका, नई दिल्ली-110078	बीएचएसडी / 4639 27.05.2013
283	डॉ. वर्षा 152/ 2, टुण्डा नगर, जोहरीपुर, दिल्ली-110094	पुत्री श्री राम कुमार	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	24	152/ 2, टुण्डा नगर जोहरीपुर, दिल्ली-110094	बीएचएसडी / 4655 04.06.2013
284	डॉ. वर्षा जनारथा 93-जी, पॉकेट-ए/ 2, मसूर विहार फेस-3 नई दिल्ली-110096	पुत्री श्री रादेश कुमार जनारथा	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	26	93-जी, पॉकेट-ए/ 2, मसूर विहार फेस-3 नई दिल्ली-110096	बीएचएसडी / 4661 04.06.2013
285	डॉ. विरिन्दा चतुर्वेदी बी-51/ एफ-2, बी-ब्लाक, दिलशाद गार्डन दिल्ली-110095	पुत्री श्री मुकेश चतुर्वेदी	बीएचएमएस / 12 दि. वि.	23	बी-51/ एफ-2, बी-ब्लाक, दिलशाद गार्डन दिल्ली-110095	बीएचएसडी / 4669 06.06.2013

286	डॉ. विशान्त राना मकान नं-592 गाव पी ओ बखतावर पुर गली दालभिल, दिल्ली-110036	पुत्र श्री चमन सिंह राना	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	मकान नं-592 गाव पी ओ बखतावर पुर गली दालभिल, दिल्ली-110036	बीएचएसडी/4677 12.08.2013
287	डॉ. विवेक स्वरूप सन्त निरंकारी सत्संग भवन, एम-ब्लाक लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024	पुत्र डॉ. विजय कुमार	बीएचएमएस/12 वेस्ट बंगल. वि	25	सन्त निरंकारी सत्संग भवन, एम-ब्लाक लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024	बीएचएसडी/4683 01.07.2013
288	डॉ. वदना गंगवार सी-104, पालम अपार्टो बिजवासन, नई दिल्ली-110061	पुत्री श्री जे०सी० गंगवार	बीएचएमएस/13 दि. वि.	25	सी-104, पालम अपार्टो बिजवासन, नई दिल्ली-110061	बीएचएसडी/4772 02.06.2014
289	डॉ. वदना राना पाकेट वी-4 प्लेट नं०-26-एच, मधूर विहार फेस-3, दिल्ली-९६	पुत्री श्री विक्रम सिंह राना	बीएचएमएस/13 दि. वि.	23	पाकेट वी-4 प्लेट नं०-26-एच, मधूर विहार फेस-3, दिल्ली-९६	बीएचएसडी/4783 03.06.2014
290	डॉ. यशी मित्तल १/७६१५, ईस्ट नेहरू पार्क नेहरू मार्ग, गली न०-६ शाहदरा, दिल्ली-११००३२	पुत्री श्री योगेश कुमार मित्तल	बीएचएमएस/12 दि. वि.	23	१/७६१५, ईस्ट नेहरू पार्क नेहरू मार्ग, गली न०-६ शाहदरा, दिल्ली-११००३२	बीएचएसडी/4621 23.05.2013
291	डॉ. यासमिन वी-५७ गली न०-२४, विजय पार्क, मौजपुर दिल्ली-११००५३	पुत्री श्री शब्दीर अहमद	बीएचएमएस/13 वी.आर.ए.वि आगरा	23	वी-५७ गली न०-२४, विजय पार्क, मौजपुर दिल्ली-११००५३	बीएचएसडी/4737 10.03.2014

जी. एस. रावत, पंजीकार, बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन, दिल्ली

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
(BOARD OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE)
NOTIFICATION

Delhi, the 27th October, 2014

No. BHS/20/2014-Delhi/4480.—The Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi published the following list of the persons whose names have entered under section-24 of Delhi Homoeopathic Act, 1956 from 1st April, 2013 to 30th July, 2014 in the Registration Register arranged in alphabetical order alongwith thier residential address, tittle, Degree etc, as required under section-28 of the said Act for general information :—

Sl. No.	Name & Address	Father's/Husband's Name	Qualification	Age	Place where practising Address	Registration No. & Date
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Anurag Pandey Room No-4 Nehru Homoeopathic Medical College & Hospital, B-Block Defence Colony, New Delhi-24	S/o Sh. Rajender Pandey	BHMS/08 BRAU Bihar	29	Room No-4 Nehru Homoeopathic Medical College & Hospital B-Block, Defence colony, New Delhi-24	BHSD/4579 14.05.2013

2	Dr. Amit Kumar C-63, Gali No-3, Laxmi Gali North Chhajjupur, Shahdara, Delhi-94	S/o Sh. Vikram Singh	BHMS/08 BRAU Bihar	34	C-63, Gali No-3, Laxmi Gali North Chhajjupur, Shahdara, Delhi-110094	BHSD/4581 21.05.2013
3	Dr. Anjali Bihani 192, Janta Flats, Pocket-7, Sec-2, Rohini, Delhi-85	D/o Sh. Govind Prasad Bihani	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	192, Janta Flats, Pocket-7, Sec-2, Rohini, Delhi- 110085	BHSD/4585 21.05.2013
4	Dr. Akshita Gupta RZ-52, F/3, Raj Nagar Part-I Palam Colony, N. Delhi-45	D/o Sh. Devindra Kumar Gupta	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	RZ-52, F/3, Raj Nagar Part-1 Palam Colony, New Delhi-45	BHSD/4593 22.05.2013
5	Dr. Alpika Bagri H. No-24, IIIrd Floor, Pocket-9 Sector-21, Rohini, Delhi-110086	D/o Sh. Bhupender Kumar Bagri	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	H. No-24, IIIrd Floor, Pocket-9 Sector-21, Rohini, Delhi-110086	BHSD/4597 22.05.2013
6	Dr. Abhay Kumar RZ-187/298, Street No- 4, Geetanjali Park, West Sagarpur, New Delhi-46	S/o Sh. A.L. Prasad	BHMS/12 GGSIPU Delhi	25	RZ-187/298, Street No-4, Geetanjali Park, West Sagarpur, New Delhi-110046	BHSD/4603 22.05.2013
7	Dr. Annie Juliet Barla 20/3 Sector-1, Pushp Vihar New Delhi-110017	D/o Sh. Vincent Barla	BHMS/12 D/U	24	20/3 Sector-1, Pushp Vihar New Delhi-110017	BHSD/4611 23.05.2013
8	Dr. Aradhana Gangal C-2, 11-A, Block-C2, Keshav Puram, Delhi-110035	D/o Sh. Arun Kumar Gangal	BHMS/12 D/U	23	C-2, 11-A, Block- C2, Keshav Puram, Delhi- 110035	BHSD/4623 24.05.2013
9	Dr. Amit Kumar B-183 Kondli, Delhi-96	S/o Sh. Than Singh	BHMS/12 D/U	24	B-183 Kondli, Delhi-96	BHSD/4629 24.05.2013
10	Dr. Armeet Arora N-26, Rajouri Garden New Delhi-110027	D/o Sh. Arvinder Pal Singh	BHMS/12 D/U	23	N-26, Rajouri Garden New Delhi-110027	BHSD/4659 04.06.2013
11	Dr. Arti Goyal R-S-12 Panjabi Bazar, Kotla Mubarak Pur, New Delhi-03	D/o Sh. Gauri Shankar Goyal	BHMS/12 D/U	23	R-S-12 Panjabi Bazar, Kotla Mubarak Pur, New Delhi-03	BHSD/4663 04.06.2013
12	Dr. Alka Maurya RZ 477A/320, Street No-7, Geetanjali Park, West Sagarpur, New Delhi-46	D/o Sh. S.B. Maurya	BHMS/12 D/U	24	RZ 477A/320, Street No-7 Geetanjali Park, West Sagarpur, New Delhi-110046	BHSD/4666 04.06.2013

13	Dr. Aayush Mittal C-1138 Tigri Khanpur New Delhi-110062	S/o Sh. Umesh Kumar Mittal	BHMS/12 D/U	23	C-1138 Tigri Khanpur, New Delhi-110062	BHSD/4671 07.06.2013
14	Dr. Anchal 23-B, Pocket-3, DDA MIG Flat, Mayur Vihar phase-III, Kondali Gharoli, Delhi	D/o Sh. Suresh Chand	BHMS/12 D/U	23	23-B, Pocket-3, DDA MIG Flat Mayur Vihar, phase-III, Kondali Gharoli, Delhi	BHSD/4674 10.06.2013
15	Dr. Anubha Sharma 4/840 Gali No-12, Jharkandi Marg, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi-32	D/o Sh.K.D.Sharma	BHMS/09 Raj Ayur.Un.	27	4/840 Gali No-12, Jharkandi Road Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi- 110032	BHSD/4686 04.07.2013
16	Dr. Aarti Dhiman E-96, Chanakya Place-1, Janak Puri, C-1 New Delhi-59	D/o Mr. Pradeep Kumar	BHMS/12 D/U	24	E-96, Chanakya Place-1, Janak Puri, C-1, New Delhi-59	BHSD/4701 13.08.2013
17	Dr. Arushi Sharma B1-1548 Vasant Kunj, New Delhi-110070	D/o Sh. Ashok Kumar Sharma	BHMS/11 BRAU Agra	25	B1-1548 Vasant Kunj, New Delhi-110070	BHSD/4710 03.09.2013
18	Dr. Ankit Sharma J & K -150, Laxmi Nagar, Delhi-110092	S/o Sh. Shyam Prakash Sharma	BHMS/11 BRAU Agra	24	J & K -150, Laxmi Nagar, Delhi -110092	BHSD/4712 04.09.2013
19	Dr. Amrita Anand S-33, 1Ind Floor School Block, Shakarpur, Delhi -110092	D/o Sh. Arun Kumar	BHMS/11 BRAU Agra	23	S-33, 1Ind Floor School Block, Shakarpur, Delhi -92	BHSD/4714 04.09.2013
20	Dr. Ankita Pal G-242, Sri Niwaspuri, New Delhi-65	D/o Sh.Jagan Nath	BHMS/12 BRAU Agra	26	G-242, Sri Niwaspuri, New Delhi -65	BHSD/4717 10.09.2013
21	Dr. Ankita E-10, Pallika Kunj, B.K. Dutt Colony NDMC Staff Quarters, New Delhi-110003	D/o Sh.Sukhbir Singh	BHMS/12 D/U	24	E-10, Pallika Kunj, B.K. Dutt Colony NDMC Staff Quarters, N. Delhi-03	BHSD/4722 27.09.2013
22	Dr. Amit Nayak D-47 Vishwakarma Colony MB Road, Near Pull Prahlaipur, New Delhi-44	S/o Sh. Jagdish Shahi Sharma	BHMS/05 Vikram.Un. Ujjain	33	D-47 Vishwakarma Colony MB Road, Near Pull Prahlaipur New Delhi-44	BHSD/4726 26.11.2013
23	Dr. Ashish Shankar 40, Jeevan Anand Society West Enclave Pitampura, Delhi-34	S/o Dr. Jata Shankar	BHMS/94 Agra. Un.	45	40, Jeevan Anand Society West Enclave, Pitampura, Delhi-34	BHSD/4730 10.01.2014

24	Dr. Ayushi Saxena Qu. No-731, Sector-IV, R.K. Puram, Delhi-22	D/o Sh. Pradeep Saxena	BHMS/12 D/U	24	Qu. No-731, Sector-IV, R. K. Puram, Delhi-22	BHSD/4731 21.01.2014
25	Dr. Amit Shrivastava D2A/29C, Janakpuri, New Delhi-110058	S/o Sh. Jai Prakash Shrivastava	DHMS/98 M.P. Council	38	D2A/29C, Janakpuri New Delhi-110058	BHSD/4732 22.01.2014
26	Dr. Amitabh Upadhyay D-123, Block-D, Krishna Park, Khanpur Delhi-110062	S/o Sh. Devanand Upadhyay	BHMS/11 BRAU Bihar	43	D-123, Block-D, Krishna Park Khanpur, Delhi- 110062	BHSD/4735 24.02.2014
27	Dr. Archana Bakshi D-106, Anand Vihar, Delhi-92	D/o Dr. Hakumat Rai Gosain	DHMS/85 Pb.Council	53	D-106, Anand Vihar, Delhi-92	BHSD/4740 20.05.2014
28	Dr. Archana Sharma F-7/419 Ganga Vihar, Delhi-94	D/o Sh. R.R. Sharma	BHMS/12 GGSIPIU Delhi	22	F-7/419 Ganga Vihar, Delhi-94	BHSD/4743 23.05.2014
29	Dr. Arsha G. Kurup Flat No-435 Group-2 Janta Flats Hastasal, Uttam Nagar, New Delhi-59	D/o Sh. T.M. Gopinath	BHMS/12 GGSIPIU Delhi	24	Flat No-435 Group-2 Janta Flats Hastasal, Uttam Nagar, New Delhi-59	BHSD/4758 26.05.2014
30	Dr. Asmita Gautam 1449/56-B Shiv Marg Durgapuri Shahdra, Delhi-93	D/o Sh. Dev Pal Singh	BHMS/13 D/U	24	1449/56-B Shiv Marg Durgapuri Shahdra, Delhi-93	BHSD/4784 03.06.2014
31	Dr. Ankita Sharma B-64/2, Gali No-6, Jagatpuri, Delhi-51	D/o Sh. Vinay Kumar Sharma	BHMS/13 D/U	23	B-64/2, Gali No-6, Jagatpuri, Delhi-51	BHSD/4791 04.06.2014
32	Dr. Anjula Narang A-34, Vishwas Park, Uttam Nagar, N.Delhi-59	D/o Sh. Baldev Krishan Narang	BHMS/13 D/U	24	A-34, Vishwas Park, Uttam Nagar, N.Delhi-59	BHSD/4797 05.06.2014
33	Dr. Anu H. No. RZE-91, New Roshanpura Najafgarah, South, Delhi-43	D/o Sh. Maman Singh	BHMS/13 D/U	23	H. No.RZE-91, New Roshanpura Najafgarah, South, Delhi-43	BHSD/4803 09.06.2014
34	Dr. Abhishek Chaudhuri GG-1/92-B, Vikaspuri, N.Delhi-18	S/o Sh. Roopak Chaudhuri	BHMS/13 D/U	24	GG-1/92-B, Vikaspuri, N.Delhi-18	BHSD/4813 24.06.2014
35	Dr. Akhilesh Kumar Shukla E-6/61, E- Block, Gali No.-6, H.No. 61 Sangam Vihar, New Delhi-80	S/o Sh. Mahesh Chandra Shukla	BHMS/05 Jaipur/Un	31	E-6/61, E- Block, Gali No.-6 H.No-61, Sangam Vihar New Delhi-80	BHSD/4824 07.07.2014

36	Dr. Akanksha Priya J-N 21 A, 11nd Floor Arya Samaj Road, Uttam Nagar, N. Delhi	D/o Sh. Gopal Mishra	BHMS/13 D/U	23	J-N 21 A, 11nd Floor Arya Samaj Road, Uttam Nagar, N. Delhi	BHSD/4830 23.07.2014
37	Dr. Abhishek Duggal BG-2/20D DDA Flats, Paschim Vihar, N. Delhi-63	S/o Sh. Naresh Kumar Duggal	BHMS/13 D/U	25	BG-2/20D DDA Flats, Paschim Vihar, N. Delhi-63	BHSD/4832 23.07.2014
38	Dr. Arun Kumar Jayant Flat No-55, Pocket-A, Phase-II Sector-13, Dwarka, New Delhi-78	S/o Sh. Bachan Singh	BHMS/13 D/U	30	Flat No. 55, Pocket-A, Phase-II, Sector-13, Dwarka, New Delhi-78	BHSD/4837 25.07.2014
39	Dr. Akanksha Verma GH-6/69, Prachin Appartment, Meera Bagh Paschim Vihar, New Delhi-110087	D/o Sh. Mahesh Chand Verma	BHMS/13 D/U	24	GH-6/69, Prachin Appartment, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi-110087	BHSD/4847 28.07.2014
40	Dr. Aditya Fouzdar GB-79, Pul Pehladpur, New Delhi-110044	S/o Sh. Satya Dev	BHMS/13 D/U	23	GB-79, Pul Pehladpur, New Delhi-110044	BHSD/4849 28.07.2014
41	Dr. Amyananda Dev Goswami C/o Mr. Ashutosh Padhy E-6, Ground Floor, Rajouri Garden New Delhi-27	S/o Sh. Kishorananda Dev Goswami	BHMS/93 Berhampur.Un Orissa	41	C/o Mr. Ashutosh Padhy, E-6, Ground Floor, Rajouri Garden New Delhi-27	BHSD/4852 28.07.2014
42	Dr. Anuj Sarin A2/97, Janakpuri, New Delhi-58	S/o Dr. Anil Chandra Sarin	BHMS/07 JRNU Raj	34	A2/97, Janakpuri, New Delhi-58	BHSD/4853 28.07.2014
43	Dr. Baljeet Singh 129-D Shiv Vihar, Chandu Vihar, Nilothi New Delhi-41	S/o Dr. Kulwant Singh Sindhu	DHMS/81 Bihar. Un	59	129-D Shiv Vihar, Chandu Vihar New Delhi-41	BHSD/4577 02.05.2013
44	Dr. Baby H. No-4, Village Nithari, New Delhi-86	D/o Sh. Om Prakash	BHMS/05 BRAU Bihar	36	H. No. 4, Village Nithari New Delhi-86	BHSD/4578 02.05.2013
45	Dr. Bhawna Aggarwal 316, Rishi Nagar Rani Bagh, Delhi-110034	D/o Sh. Anil Kumar Aggarwal	BHMS/12 GGSPU Delhi	23	316, Rishi Nagar Rani Bagh Delhi-110034	BHSD/4583 21.05.2013
46	Dr. Beenu Saini 791, Saini Mohalla Shahabad, Mohammad Pur, South West, Delhi-110061	D/o Sh. Charan Singh Saini	BHMS/12 D/U	24	791, Saini Mohalla Shahabad, Mohammad Pur, South West Delhi-110061	BHSD/4647 03.06.2013

47	Dr. Barkha Pokharia 10-A Ashoka Apts. Devli Khanpur, N.Delhi-62	D/o Sh. Rakesh Kumar Pokharia	BHMS/12 D/U	25	10-A Ashoka Apts. Devli Khanpur New Delhi-110062	BHSD/4699 01.08.2013
48	Dr. Bhupinder Kaur J-13/24, Rajouri Garden, New Delhi-27	D/o Sh. S. Darshan Singh	BHMS/07 Baba Farid. Un	28	J-13/24, Rajouri Garden New Delhi-27	BHSD/4736 27.02.2014
49	Dr. Bhagyashree Singh H-19/132, Sector-7, Rohini, New Delhi-85	D/o Sh. Ashwani Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22	H-19/132, Sector-7, Rohini, New Delhi-85	BHSD/4749 23.05.2014
50	Dr. Chetna Sharma 408, 16 Block, Lodhi Colony, New Delhi-03	D/o Sh. Jai Prakash Sharma	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	408, 16 Block, Lodhi Colony New Delhi-110003	BHSD/4598 22.05.2013
51	Dr. Chhavi Bali 605 & 608 DDA Building No-2, DC Janakpuri, New Delhi-110058	D/o Sh. L.K. Bali	BHMS/12 D/U	23	Vindhya Telelink 5 Ltd 605 to 608 DDA Building No. 2 DC Janakpuri, New Delhi-110058	BHSD/4688 04.07.2013
52	Dr. Chhaya Pawar GH2, 136-B, Paschim Vihar, New Delhi-63	D/o Sh. Ranvir Singh	BHMS/13 D/U	24	GH2, 136-B, Paschim Vihar, New Delhi-63	BHSD/4786 03.06.2014
53	Dr. Dhaani 8/17 Jangpura Lane Main Bhogal Mathura Road , New Delhi- 110014	D/o Sh. Raj	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	8/17 Jangpura Lane Main Bhogal Mathura Road , New Delhi-110014	BHSD/4586 21.05.2013
54	Dr. Divya Jain B-2/16 Rana Partap Bagh, Delhi-110007	D/o Sh. Kailash Kumar Jain	BHMS/12 D/U	23	B-2/16 Rana Partap Bagh Delhi-11007	BHMS/4634 27.05.2013
55	Dr. Deepa H.No-512, V.P.O Katewara, Delhi-110039	D/o Sh. Rajender Singh	BHMS/12 D/U	23	H.No-512, V.P.O Katewara Delhi-110039	BHSD/4648 03.06.2013
56	Dr. Diksha Sharma 156/21, Chandanhulla, Chattarpur Road New Delhi-74	D/o Sh. Rakesh Kumar Sharma	BHMS/10 Kumaun. Un.	25	156/21, Chandanhulla Chattarpur Road, N. Delhi-74	BHSD/4687 04.07.2013
57	Dr. Dave Hatel Pankaj 3/1 Madhuban Apts Pitampura, Delhi-34	D/o Sh. Pankaj C.Dave	BHMS/02 Gujrat. Un.	33	3/1 Madhuban Apts Pitampura Delhi-110034	BHSD/4692 29.07.2013
58	Dr. Dipika Singh H. No-749, Pocket-5, Mayur Vihar Phase-1 Delhi-110091	D/o Dr. Devendra Singh	BHMS/06 Bark. Un Bhopal	31	H. No-749 Pocket-5, Mayur Vihar Phase-1, Delhi- 110091	BHSD/4725 26.11.2013

59	Dr. Dikshita 78-B, LIG Flats Prasad Nagar, Karol Bagh, N. Delhi	D/o Sh. Virender Kumar	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	78-B, LIG Flats Prasad Nagar, Karol Bagh, N. Delhi	BHSD/4745 23.05.2014
60	Dr. Dherya Sahni B-31/1, Gali No.18, Hanuman Mandir Road Kiran Garden Uttam Nagar, Delhi-59	D/o Sh. Sushil Kumar Sahni	BHMS/12 GGSIPU Delhi	26	B-31/1, Gali No.18, Hanuman Mandir Road, Kiran Garden Uttam Nagar, Delhi-59	BHSD/4746 23.05.2014
61	Dr. Deepshikha Mishra H.No.741, Lane No-14, Raj Nagar, Pt-II, Palam, New Delhi-77	D/o Sh. Kishto Kumar Mishra	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22	H.No.741, Lane No. 14, Raj Nagar Pt-II, Palam, New Delhi-77	BHSD/4760 26.05.2014
62	Dr. Deepti Sharma D-208, Metro Vihar, DMRC Staff Quarters Shastri Park, Delhi-53	D/o Sh. Satyadev Sharma	BHMS/13 D/U	23	D-208, Metro Vihar, DMRC Staff Quarters, Shastri Park, Delhi-53	BHSD/4777 03.06.2014
63	Dr. Deepika Tripathi C-422 1ind Floor, Mohan Gali, Nanak Chand Basti Kotla Mubarakpur, New Delhi-03	D/o Sh. Deoki Nandan Tripathi	BHMS/13 D/U	27	C-422 1ind Floor, Mohan Gali Nanak Chand Basti Kotla Mubarakpur, N.Delhi-03	BHSD/4828 23.07.2014
64	Dr. Deepak Kumar 52, Kain Niwas, Main Road, Johripur, Delhi-110094	S/o Sh. Dharam Pal	BHMS/13 D/U	23	52, Kain Niwas, Main Road Johripur Delhi-110094	BHSD/4843 28.07.2014
65	Dr. Damini Dhall 394, Delhi Gate Bazar, New Delhi-110002	D/o Sh. Devender Kumar Dhall	BHMS/13 D/U	23	394, Delhi Gate Bazar New Delhi-110002	BHSD/4845 28.07.2014
66	Dr. Ekta Agrawal Flat No. 40, Sec-1, Pkt- 1, DDA SFS Flats, Dwarka, N. Delhi-75	D/o Sh. A. K. Agrawal	BHMS/12 D/U	22	Flat No. 40, Sec-1, Pkt-1, DDA SFS Flats Dwarka, N. Delhi-75	BHSD/4673 10.06.2013
67	Dr. Eswara Dass A2/23, Hahnemann Enclave Plot No. 40 Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075	Late Sh. Bala Krishna Pillai	DHMS/73 T. M. Council	63	A2/23, Hahnemann Enclave Plot No. 40, Sector-6, Dwarka New Delhi-110075	BHSD/4860 30.07.2014
68	Dr. Gunjan Rai 53-B, D.D.A Flats, Anand Vihar, Delhi-92	D/o Sh. Ram Rai	BHMS/12 D/U	23	53-B, D.D.A Flats Anand Vihar Delhi-110092	BHSD/4626 24.05.2013
69	Dr. Garima Singh B-63, Jeewan Park (Pankha Road), New Delhi-110059	D/o Sh. Ram Niwas	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	B-63, Jeewan Park (Pankha Road), New Delhi- 110059	BHSD/4641 27.05.2013

70	Dr. Garima Gautam A/2, Palika Awas, Sarojini Nagar, New Delhi-110023	D/o Sh. Manoj Kumar Gautam	BHMS/12 D/U	23	A/2, Palika Awas, Sarojini Nagar, New Delhi-110023	BHSD/4643 31.05.2013
71	Dr. Gurdeep Dhiman L-Ext, 348 Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-59	S/o Sh. Khem Chand Dhiman	BHMS/12 D/U	23	L-Ext, 348 Mohan Garden Uttam Nagar, New Delhi- 59	BHSD/4650 03.06.2013
72	Dr. Gavish kumar A-17, HC, Sawan Park, Ashok Vihar-III, Delhi- 52	S/o Sh. Vijender Kumar	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	A-17, HC, Sawan Park, Ashok Vihar-III, Delhi-52	BHSD/4764 27.05.2014
73	Dr.Gurpreet Kaur 99 Pratap Khand Vishwakarma Nagar Jhilmil Colony, Delhi-95	D/o Sh. Jasbeer Singh	BHMS/13 D/U	27	As in Column No. 2 99 Pratap Khand Vishwakarma Nagar Jhilmil Colony, Delhi-95	BHSD/4833 23.07.2014
74	Dr. Himanshu Kukreja Block BK-2, H.No-20 Third Floor, Shalimar Bagh, Delhi-110088	S/o Sh. Ramesh Kumar Kukreja	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	Block BK-2, H.No- 20 Third Floor Shalimar Bagh, Delhi-110088	BHSD/4604 22.05.2013
75	Dr. Hirdyesh Pant H.No-76, Sector-9, R. K. Puram New Delhi-110022	S/o Late Sh. Sohan Chandra Pant	BHMS/12 D/U	23	H.No-76, Sector-9, R. K. Puram New Delhi-110022	BHSD/4652 03.06.2013
76	Dr. Himanshu Sharma B-4/42A, LIG Flats, Ashok Vihar-2, Delhi-52	S/o Sh.H.P. Sharma	BHMS/12 BRAU Agra	28	B-4/42A, LIG Flats, Ashok Vihar-2, Delhi -52	BHSD/4720 26.09.2013
77	Dr. Harsh Awasthi F-255 Hari Nanand Bhawan, Near Paliwal Dharamshala, Laxmi Nagar, Delhi-92	S/o Sh. B. D. Awasthi	BHMS/11 BRAU Bihar	24	F-255 Hari Nanand Bhawan, Near Paliwal Dharamshala Laxmi Nagar, Delhi-92	BHSD/4724 12.11.2013
78	Dr. Hemlata Singh RZ-238, Chetan Vihar, Gopal Nagar Dhansa Road, Najafgarh, New Delhi-43	D/o Sh. M.D Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	26	RZ-238, Chetan Vihar, Gopal Nagar, Dhansa Road, Najafgarh New Delhi-43	BHSD/4744 23.05.2014
79	Dr. Harpreet Singh B-25, Greater Kailash Encalve-II First Floor, New Delhi	D/o Late Dr. Ravinder Singh Ghai	BHMS/02 North Gujarat Un	32	B-25, Greater Kailash Encalve-II First Floor, New Delhi	BHSD/4765 30.05.2014
80	Dr.Harmeet Kaur 2172/167, Ganesh Pura- B, Tri Nagar, Delhi-35	D/o Sh. Jagdev Singh	BHMS/13 D/U	23	2172/167, Ganesh Pura-B, Tri Nagar, Delhi-35	BHSD/4767 02.06.2014

81	Dr. Harpreet Kaur Sehgal D-25, Tagore Garden Extn, New Delhi-27	D/o Sh.Gulzar Singh	BHMS/13 D/U	25	D-25, Tagore Garden Extn., New Delhi-27	BHSD/4778 03.06.2014
82	Dr. Harsukh Mehta FA-33, Sector-F&G, Shivaji Enclave, New Delhi-27	S/o Lt. Sh. Simrat Singh Mehta	BHMS/12 Jiwaji.Un Gwalior	25	FA-33, Sector-F&G, Shivaji Enclave, New Delhi-27	BHSD/4816 30.06.2014
83	Dr. Himanshu Atender Malik A-2537, Netaji Nagar, New Delhi-110023	S/o Sh. Rajpal Singh Malik	BHMS/13 D/U	25	A-2537, Netaji Nagar, New Delhi-110023	BHSD/4842 28.07.2014
84	Dr. Hem Chandra Verma 1132, M. S. Public School Near Dada Mandoo Temple, Karala, Delhi-110081	S/o Sh. Leela Dhar Verma	DHMS/93 State Council M.P	46	1132, M.S.Public School Near Dada Mandoo Temple, Karala Delhi-110081	BHSD/4859 30.07.2014
85	Dr. Isha Sharma Flat No-723, Pockt-D, Dilshad Garden Delhi-95	D/o Sh. Greesh Sharma	BHMS/13 D/U	23	Flat No-723, Pockt-D, Dilshad Garden, Delhi-95	BHSD/4795 05.06.2014
86	Dr. Jyotsana Wali T-25/1 Sewa Medical Lab, Khirki Extension Malviya Nagar, New Delhi-110017	D/o Sh. Vijay Kumar Wali	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	T-25/1 Sewa medical lab, Khirki Extension, Malviya Nagar New Delhi-110017	BHSD/4610 23.05.2013
87	Dr. Jasmine Vohra E-207, Ground floor Tagore Garden Extension, New Delhi-110027	D/o Sh. Inderjeet Singh	BHMS/12 D/U	25	E-207, Ground floor Tagore Extension, Garden New Delhi-110027	BHSD/4635 27.05.2013
88	Dr. James Michad 46A, D.D.A Janta Flats, Shivaji Encalve Extn New Delhi-110027	S/o Sh. V. C. Michad	BHMS/12 D/U	23	46A, D.D.A Janta Flats, Shivaji Encalve Extn., New Delhi-27	BHSD/4657 04.06.2013
89	Dr. Jyoti Singh House No. F/78 Village Rangpuri, P.O. Mahipal Pur, New Delhi-37	D/o Sh. Jagbir Singh	BHMS/12 D/U	23	House No. F/78 Village Rangpuri, P.O. Mahipal pur New Delhi-37	BHSD/4676 12.08.2013
90	Dr. Juhi Aneja W-2,7/2 Hari Singh Park, New Multan Nagar New Delhi-56	D/o sh. Dharamveer Aneja	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	W-2,7/2 Hari Singh Park, New Multan Nagar, New Delhi-56	BHSD/4703 30.08.2013
91	Dr. Jaideep Sharma A3, 82/1, Sector-7, Rohini, Delhi-85	S/o Dr. Mahesh Sharma	BHMS/12 Raj. Ayur. Un	25	A3, 82/1, Sector-7, Rohini, Delhi-85	BHSD/4729 26.12.2013

92	Dr. Jaspreet Kaur G-33, Ansari Nagar (East), AIIMS Quarters, N.Delhi-29	D/o Sh. Dalbir Singh	BHMS/13 D/U	23	G-33, Ansari Nagar (East), AIIMS Quarters, N. Delhi-29	BHSD/4802 09.06.2014
93	Dr. Jasmeen Kaur G-74-II Floor, Street No-3, G-Block Hari Nagar, N.Delhi-58	D/o Late S.Dalip Singh	BHMS/13 D/U	23	G-74-II Floor, Street No-3, G-Block Hari Nagar, N.Delhi-58	BHSD/4804 10.06.2014
94	Dr. Jamil Akhtar 47/10, Rajpur Road, Civil Line, Delhi-54	S/o Sh. Mojahidul Haque	BHMS/11 BRAU Bihar	32	47/10, Rajpur Road, Civil Line, Delhi-54	BHSD/4826 18.07.2014
95	Dr. Kamini Kaushal D-16, Plot No. 10, Sec. 10, Dwarka New Delhi-75	D/o Sh. Chaman Lal	BHMS/06 Pb. Un.	29	D-16, Plot No.10, Sec. 10, Dwarka, New Delhi-75	BHSD/4576 02.05.2013
96	Dr. Kavita Anand H. No. 440/3, Gali No-5 Bhola Nath Nagar Shahdara, Delhi-32	D/o Sh. R. L. Anand	BHMS/12 GGSIPU Delhi	28	H. No. 440/3, Gali No. 5 Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi-32	BHSD/4591 22.05.2013
97	Dr. Kaavya AG-I/171-B, Vikas Puri, New Delhi-110018	D/o Sh. Prempal	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	AG-I/171-B, Vikas Puri, New Delhi-110018	BHSD/4620 23.05.2013
98	Dr. Khushboo Garg A-23/A, Milap Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059	D/o Sh. Ved Prakash Garg	BHMS/12 D/U	24	A-23/A, Milap Nagar Uttam, Nagar, New Delhi-110059	BHSD/4670 07.06.2013
99	Dr. Kusum Lata D-39/B Rajdhani Park Nangloi, Delhi-41	D/o Sh. Ishwar Dass	BHMS/12 D/U	23	D-39/B Rajdhani Park Nangloi Delhi-110041	BHSD/4689 10.07.2013
100	Dr. Kavita Sharma 162/1, Block-B, S.t No.- 9, Bhajanpura, Delhi -53	D/o Sh. Shiv Kumar Sharma	BHMS/11 BRAU Agra	23	162/1, Block-B, S.t, No.-9, Bhajanpura, Delhi- 53	BHSD/4709 03.09.2013
101	Dr. Kriti Sharma D-113 Tagore Garden Extension, New Delhi-27	D/o Sh. N. K. Sharma	BHMS/11 BRAU Agra	24	D-113 Tagore Garden Extension, New Delhi-27	BHSD/4711 04.09.2013
102	Dr.,Kiran Sankar Bera 74, Shahpur Jat, N.Delhi-49	S/o Sh.,Hemanta Bera	BHMS/10 WBU HC	30	74, Shahpur Jat, N.,Delhi-49	BHSD/4738 01.04.2014
103	Dr.,Kanika Gupta C-2D/50-B, Janakpuri, New Delhi-58	D/o Sh. Lalit Gupta	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	C-2D/50-B, Janakpuri, New Delhi-58	BHSD/4748 23.05.2014

104	Dr. Kalpana Rajput 59-B/C-II New Ashok Nagar, Delhi-91	D/o Sh.Yudhishtir Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	59-B/C-II New Ashok Nagar, Delhi-91	BHSD/4761 27.05.2014
105	Dr. Komal Sharma Khasara No-123/19/3, Gali No.-9 Sant Nagar, Burari, Delhi-84	D/o Sh. Kishan Swaroop Sharma	BHMS/13 D/U	23	Khasara No.123/19/3, Gali No.-9 Sant Nagar, Burari, Delhi-84	BHSD/4776 03.06.2014
106	Dr. Khansa Jamil A-226 Abul Fazal Encalve Part-II, Shaheen Bagh, Okhla, New Delhi-110025	D/o Sh. Jamil Ahmed Faruqui	BHMS/13 D/U	23	A-226 Abul Fazal Encalve Part-II, Shaheen Bagh, Okhla, New Delhi-25	BHSD/4787 03.06.2014
107	Dr. Kanika Jairath E-6/8 Krishna Nagar, Delhi-51	D/o Sh. Naresh Kumar Jairath	BHMS/13 D/U	23	E-6/8 Krishna Nagar, Delhi-51	BHSD/4798 05.06.2014
108	Dr. Kavita Verma E-1/133, Sector 10, Rohini, Delhi-85	D/o Sh. Munshi Lal	BHMS/13 D/U	25	E-1/133, Sector 10, Rohini Delhi-85	BHSD/4850 28.07.2014
109	Dr. Manpreet Kaur 4508/11 Jai Mata Market, Tri Nagar, Delhi-110035	D/o Sh. Mahinder Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22	4508/11 Jai Mata Market Tri Nagar, Delhi-110035	BHSD/4595 22.05.2013
110	Dr. Meenakshi Rawat B-1/244, 1st Floor, Moti Nagar, New Delhi-110015	D/o Sh. Balbir Singh Rawat	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	B-1/244, 1st Floor, Moti Nagar, New Delhi-110015	BHSD/4599 22.05.2013
111	Dr. Mohit Arora Z-89, Dayal Sir Road, Om Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059	S/o Sh. Kanwal Kishore Arora	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22	Z-89, Dayal Sir Road, Om Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-59	BHSD/4602 22.05.2013
112	Dr. Mansi Soni 1730-D, Chuna Mandi Pahar Ganj , New Delhi-110055	D/o Sh. Rakesh Kumar Soni	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	1730-D, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055	BHSD/4607 22.05.2013
113	Dr. Maridula Aggarwal B-302, Neelachal Appt, Plot No-3, Sector-4 , Dwarka, New Delhi-78	D/o Sh. S. K. Aggarwal	BHMS/12 D/U	23	B-302, Neelachal Appt., Plot No. 3 Sector-4, Dwarka, N. Delhi-78	BHSD/4615 23.05.2013
114	Dr. Manu Gaur	D/o Sh.Prabhakar	BHMS/12	22	11/32,Old Rajinder	BHSD/4638

	11/32, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60	GGSIPU Delhi	Nagar, New Delhi-60	27.05.2013
115	Dr. Meenakshi Gupta GH-1/163 Archana Apartments , Paschim Vihar, New Delhi-63	D/o Sh. Durga Prasad	BHMS/12 D/U	24 GH-1/163 Archana Apartments, Paschim Vihar, New Delhi-63 BHSD/4645 03.06.2013
116	Dr. Mayuri Trivedi A-1/64-A, Keshav, Puram, Delhi-110035	D/o Sh. D. N. Trivedi	BHMS/12 D/U	23 A-1/64-A, Keshav Puram, Delhi-110035 BHSD/4651 03.06.2013
117	Dr. Madhu Lata H.No-472/16, Gali No-1, Chisti Chaman, Kishan Ganj, Delhi-110007	D/o Sh. Manna Lal	BHMS/12 D/U	25 H.No. 472/16, Gali No. 1, Chisti Chaman, Kishan, Ganj, Delhi-07 BHSD/4654 04.06.2013
118	Dr. Megha Bansal G-16/32 First Floor, Sector-15, Rohini, Delhi-110085	D/o Sh. Naresh Bansal	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23 G-16/32 First Floor, Sector-15 Rohini, Delhi-110085 BHSD/4667 04.06.2013
119	Dr. Mohammad Rafi 297 A Gali No. 2, D-Block, Nehru Vihar Delhi-110094	S/o Sh. Rais Ahmed	BHMS/12 Raj Ayur. Un.	27 297 A Gali No. 2, D-Block Nehru Vihar, Delhi-110094 BHSD/4681 20.06.2013
120	Dr. Mehak Gupta 3/159 Sunder Vihar Near Syed, Nangloi New Delhi-110087	D/o Sh. Rakesh Kumar Gupta	BHMS/12 D/U	24 3/159 Sunder Vihar Near Syed Nangloi, New Delhi-110087 BHSD/4685 03.07.2013
121	Dr. Manmeet Kaur 434 Jheel Kuranja, Delhi -51	D/o Sh. Ravinder Singh Kakkar	BHMS/12 BRAU Agra	24 434 Jheel Kuranja, Delhi -51 BHSD/4721 27.09.2013
122	Dr. Mohsin Khan A/27 Badarpur Ext., New Delhi-44	S/o Mohd. Shakeel Khan	BHMS/11 BRAU Bihar	27 A/27 Badarpur Ext., New Delhi-44 BHSD/4728 16.12.2013
123	Dr. Megha Kiran Plot-At-KH-21/5 Qutub Vihar Pahse-1, E-Block Goyla Dairy, New Delhi-71	D/o Sh. Udhay Chandra Chaudhary	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22 Plot-At-KH-21/5 Qutub Viha,r Phase-1, E-Block, Goyla Dairy, New Delhi-71 BHSD/4741 23.05.2014
124	Dr. Meera Kumari B-114, Madhu Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-59	D/o Sh. Narad Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23 B-114, Madhu Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-59 BHSD/4763 27.05.2014
125	Dr. Manisha H.No.-86, Sisodia	D/o Sh. Raj Singh	BHMS/13 D/U	23 H.No. 86, Sisodia Mohalla, BHSD/4770 02.06.2014

	Mohalla, Bakhtawarpur, Delhi-36		Bakhtawarpur, Delhi-36
126	Dr. Mohan Lata P-1/4 Budh Vihar Phase-I, Delhi-86	D/o Sh. Vijay Kumar	BHMS/13 D/U
24	P-1/4 Budh Vihar Phase-I, Delhi-86	BHSD/4788 03.06.2014	
127	Dr. Minakshi Kandpal 308A Pandit Mohalla Village Kondli, Delhi- 96	D/o Sh. B. D. Kandpal	BHMS/13 D/U
25	308A Pandit Mohalla, Village Kondli, Delhi-96	BHSD/4790 04.06.2014	
128	Dr. Mamoni Maity 67/5345 Regharpura, Karol Bagh, N.Delhi-05	D/o Sh. Chitta Ranjan Maity	BHMS/13 D/U
24	67/5345 Regharpura, Karol Bagh, N. Delhi-05	BHSD/4805 10.06.2014	
129	Dr. Monisha Panicker 127-D, I-Pocket, Dilshad Garden, Delhi-95	D/o Sh. P. J. Mohana Panicker	BHMS/13 D/U
23	127-D, I-Pocket, Dilshad Garden, Delhi-95	BHSD/4807 10.06.2014	
130	Dr. Mini Arora SD-445, Tower Apartments, Pitampura, Delhi-34	D/o Sh. Roop Narayan	BHMS/93 Raj.Un
42	SD-445, Tower Apartments, Pitampura, Delhi-34	BHSD/4811 17.06.2014	
131	Dr. Maryam R-202, Lane No.5 Sir Syed Road, Jogahai Extn, Jamia Nagar, New Delhi-25	D/o Sh. Vakkar Ali	BHMS/13 D/U
23	R-202, Lane No. 5 Sir Syed Road, Jogahai Extn, Jamia Nagar New Delhi-110025	BHSD/4821 03.07.2014	
132	Dr. Megha Suneja 7/304, Laxmi Nagar, Lalita Park, Delhi-92	D/o Sh. Narender Kumar Suneja	BHMS/13 D/U
24	7/304, Laxmi Nagar, Lalita Park Delhi-110092	BHSD/4848 28.07.2014	
133	Dr. Neetika Mittal Jindal Villa, H-5/4, Model Town Ind Town, Ind, Delhi- 110009	D/o Sh. Pawan Mittal	BHMS/05 Baba Farid Un
30	Jindal Villa, H-5/4, Model Town, Ind, Delhi-110009	BHSD/4574 01.04.2013	
134	Dr. Navneet Sirohi D-153, Krishna Park, Devli Road, Khanpur New Delhi-110062	S/o Sh. Shyam Vir Singh	BHMS/08 BRAU Bihar
30	D-153, Krishna Park Devli Road, Khanpur, New Delhi-110062	BHSD/4582 21.05.2013	
135	Dr. Nupur Chand A-2 Block Gali No-3 Himgiri Enclave, Burari Near Transport Authority, Delhi-110084	D/o Sh. Mahesh Chand	BHMS/12 GGSIPU Delhi
23	A-2 Block Gali No-3 Himgiri Near Transport Authority Delhi-110084	BHSD/4600 22.05.2013	
136	Dr. Neha Dhoundiyal C-321, Manav Appt., Sector-9, Rohini Delhi-110085	D/o Sh. Lalit Prasad Dhoundiyal	BHMS/12 GGSIPU Delhi
23	C-321, Manav Appt Sector-9 Rohini, Delhi-110085	BHSD/4601 22.05.2013	

137	Dr. Nidhi Thakur B-677, G.D. Colony, Mayur Vihar Phase-3 New Delhi-96	D/o Sh. Immay Singh Thakur	BHMS/12 GGSIPU Delhi	25	B-677, G.D. Colony, Mayur Vihar Ph-3, New Delhi-96	BHSD/4609 23.05.2013
138	Dr. Navneet Anand 245, C/o Balwan Singh Tokas, 3rd Floor Munirka, New Delhi-7	S/o Sh. Devendra Nath Rai	BHMS/I2 D/U	24	245, C/o Balwan Singh Tokas, 3rd Floor Munirka, New Delhi-67	BHSD/4612 23.05.2013
139	Dr. Nisha Sharma RZ-I Block, House No- 158, West Sagarpur Street No-8c, New Delhi-110046	D/o Sh. Ramswaroop Sharma	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	RZ-I Block, House No-158, West Sagarpur Street No-8c, New Delhi-110046	BHSD/4618 23.05.2013
140	Dr. Noorus Saba 281, Jama Masjid Khureji Khas Delhi-110051	D/o Sh. Mohd Irfan	BHMS/12 D/U	23	281, Jama Masjid Khureji Khas Delhi-110051	BHSD/4644 03.06.2013
141	Dr. Nitin H-1-430, Jahangir Puri, Delhi-33	S/o Sh. Rambir	BHMS/12 D/U	26	H-1-430, Jahangir Puri Delhi-33	BHSD/4658 04.06.2013
142	Dr. Nakul H-1-430 Jahangir Puri, Delhi-33	S/o Sh. Rambir	BHMS/12 D/U	25	H-1-430 Jahangir Puri Delhi-110033	BHSD/4664 04.06.2013
143	Dr. Naziya Nikhat H.No-24A,Z-Block Shyam Vihar, Najafgarh New Delhi-43	D/o Sh. Khalid Amin Ansari	BHMS/12 D/U	22	H.No-24A,Z-Block Shyam Vihar Najafgarh, New Delhi-110043	BHSD/4680 17.06.2013
144	Dr. Neha Joshi 348, IIInd Floor Gate No-II Hakikat Nagar Kingsway Camp, Delhi- 110009	D/o Sh. Rohit Kumar Joshi	BHMS/12 D/U	24	348, IIInd Floor Gate No-II Hakikat Nagar Kingsway Camp Delhi-110009	BHSD/4698 01.08.2013
145	Dr. Nikita Naresh D-12 Syndicate Enclave, Raghu Nagar New Delhi-45	D/o Dr. Naresh Singh	BHMS/12 BRAU Agra	23	D-12 Syndicate Enclave Raghu Nagar, New Delhi-45	BHSD/4707 03.09.2013
146	Dr. Neha Verma Z-22, Sarojini Nagar, New Delhi-23	D/o Sh. U.K. Verma	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	Z-22, Sarojini Nagar, New Delhi-23	BHSD/4747 23.05.2014
147	Dr. Nupur Gupta WZ-20 Bal Udayan Road, Utam Nagar, N.Delhi-59	D/o Sh. Madan Lal Gupta	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	WZ-20 Bal Udayan Road, Utam Nagar, N.Delhi-59	BHSD/4751 26.05.2014

148	Dr. Nikita Jayant E-Block, H.No.9/A Dayalpur, 33-Feet Road, Near Karawal Nagar, Delhi-94	D/o Sh.Krishan Kumar Jayant	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22	E-Block, H.No.9/A Dayalpur, 33-Feet Road, Near Karawal Nagar, Delhi-94	BHSD/4757 26.05.2014
149	Dr. Nuzhat Jahan R-163/A Batla House Jamia Nagar, Okhla, N.Delhi-25	D/o Mohd. Nazar	BHMS/13 D/U	24	R-163/A Batla House Jamia Nagar, Okhla, N.Delhi-25	BHSD/4789 03.06.2014
150	Dr. Neeru Verma P-66, Pandav Nagar, Mayur Vihar-1, N.Delhi-91	D/o Dr. Prem Verma	BHMS/06 Baba Farid.Un	30	P-66, Pandav Nagar, Mayur Vihar-1, N.Delhi-91	BHSD/4800 06.06.2014
151	Dr. Nivedita House No. C-65, Shiv Gali Nanak Chanda, Basti, Kotla Mubarakpur New Delhi-110003	D/o Sh. A. K. Rai	BHMS/13 D/U	24	House No. C-65, Shiv Gali Nanak Chanda, Basti, Kotla Mubarakpur New Delhi-110003	BHSD/4835 25.07.2014
152	Dr. Nikhita Gupta Flat No.-176, Pocket C- 8, Sector-8 Rohini, Delhi-85	D/o Sh. N. K. Gupta	BHMS/13 D/U	24	Flat No.-176, Pocket C-8, Sector-8 Rohini, Delhi-85	BHSD/4840 28.07.2014
153	Dr. Neelima Singh D-1149/B, Street No.7, Ashok Nagar Shahdara, Delhi-110093	D/o Sh. Santosh Singh	BHMS/13 D/U	28	D-1149/B, Street No.7, Ashok Nagar Shahdara, Delhi-110093	BHSD/4844 28.07.2014
154	Dr. Nitika RZ-192, Roshan Garden Najafgarh, New Delhi-110043	D/o Sh. Raj Singh Gulia	BHMS/13 D/U	23	RZ-192, Roshan Garden Najafgarh, New Delhi-110043	BHSD/4846 28.07.2014
155	Dr. Nemath Radha A2/23, Hahnemann Enclave Plot No.-40, Sector-6, Dwarka New Delhi-110075	W/o Dr. Eswara Dass	DHMS/ Kerla. Council	58	A2/23, Hahnemann Enclave Plot No.-40, Sector-6, Dwarka New Delhi-110075	BHSD/4861 30.07.2014
156	Dr. Preeti Gupta 136-B, St. No-6, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-29	D/o Sh. Anil Gupta	BHMS/12 D/U	24	136-B, St. No-6, Krishna Nagar Safdarjung Enclave, New Delhi-29	BHSD/4614 23.05.2013
157	Dr. Pooja Gupta P-1 House No-4 Phase- 1, Near Radha	D/o Sh. B.N.Gupta	BHMS/12 D/U	24	P-1 House No-4 Phase-1 Near Radha Mandir,	BHSD/4617 23.05.2013

	Mandir, Budh Vihar, Delhi-110086			Budh Vihar, Delhi-86	
158	Dr. Poornima Gulati H. No-687, Parmanand Colony (West), Delhi-110009	D/o Sh. J.K.Gulati	BHMS/12 D/U	22	H. No-687, Parmanand Colony (West), Delhi-110009
159	Dr. Payal F-495, Block -F, Karampura New Delhi-110015	D/o Sh. Pawan Kumar Gupta	BHMS/12 D/U	24	F-495, Block -F, Karampura New Delhi-110015
160	Dr. Purnima Suri Road No-25 House No- 4, Punjabi Bagh Extension, New Delhi- 110026	D/o Sh. Sunil Suri	BHMS/12 D/U	24	Road No-25 House No-4 Punjabi Bagh, New Delhi-26
161	Dr. Prachi Sharma 1193/81, Shanti Nagar, Tri Nagar Delhi-110035	D/o Sh. Ambrish Kumar	BHMS/12 D/U	24	1193/81, Shanti Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035
162	Dr. Parul Sharma 1449/C-7, Street No-7, Durgapuri, Loni Road, Shahdara, Delhi-93	D/o Sh. Rakesh Kumar Sharma	BHMS/10 Raipur.R.S.U	24	1449/C-7, Street No-7, B-Block, Durgapuri, Loni Road, Shahdara, Delhi-93
163	Dr. Parul Kashyap C-59 Sainik Nagar Near Nawada Metro Station, Uttam Nagar, New Delhi-59	D/o Sh. Lokpal Singh	BHMS/12 D/U	24	C-59 Sainik Nagar Near Nawada Metro Station, Uttam Nagar, New Delhi-59
164	Dr. Preeti Bhatia 144, Kalyan vihar, New Delhi-110009	D/o Sh. Yoginder Kumar Bhatia	BHMS/12 D/U	23	144, Kalyan vihar New Delhi-110009
165	Dr. Prit Prabha Happy Landing Afwwa,Girls Hostel subroto park, New Delhi-110010	D/o Sh. Abhay Nandon Mishra	BHMS/12 GGSIPU Delhi	22	Happy Landing Afwwa,Girls Hostel, Subroto Park New Delhi-110010
166	Dr. Parul Gupta E-735 Lohiya Gali Main Road, Babarpur Shahdara, Delhi-110032	D/o Sh. Pardeep kumar	BHMS/12 D/u	23	E-735 Lohiya Gali Main Road Babarpur Shahdara Delhi-110032
167	Dr. Piyushi Gupta B-3/124 Paschim Vihar, New Delhi-110063	D/o Sh. Naresh Gupta	BHMS/11 BRAU Agra	24	B-3/124 Paschim Vihar, New Delhi - 110063
168	Dr. Pavneet Kaur A-134, Second Floor Double Storey, Kalkaji, N.Delhi-19	D/o Late Sh. Ravinder Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	A-134, Second Floor Double Storey, Kalkaji, N.Delhi-19

169	Dr. Pooja Sharma 16/183 E-Block Tank Road, Karol Bagh, New Delhi-05	D/o Sh. Jiwan Sharma	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	16/183 E-Block Tank Road, Karol Bagh, New Delhi-05	BHSD/4756 26.05.2014
170	Dr. Pooja A-704 Naurattan Apartments, Sec-23 Plot-74 Dwarka, New Delhi-75	D/o Sh. Balram Sharma	BHMS/13 D/U	24	A-704 Naurattan Apartments Sec-23, Plot-74 Dwarka, New Delhi-75	BHSD/4781 03.06.2014
171	Dr. Priya Khandelwal D-26, Shakarpur, Delhi- 110092	D/o Sh. Mukesh Khandelwal	BHMS/13 D/U	24	D-26, Shakarpur, Delhi-92	BHSD/4793 04.06.2014
172	Dr. Prikanksha Malik 193/169 Rajpur Khurd Ext. Near Govt. Primary School, Chattarpur Mehrauli, New Delhi-68	D/o Sh. Shyam Malik	BHMS/13 D/U	23	193/169 Rajpur Khurd Ext. Near Govt. Primary, School, Chattarpur Mehrauli, New Delhi-68	BHSD/4796 05.06.2014
173	Dr. Pavan Kumar Singh N-7/8 Block-N, JJ Colony-III Nangloi, Delhi	S/o Sh. Dhirendra Pal Singh	BHMS/13 BRAU Agra	25	N-7/8 Block-N, JJ Colony-III Nangloi, Delhi	BHSD/4801 06.06.2014
174	Dr. Parul Goel 24, Second Floor, East Avenue Road East Punjabi Bagh, New Delhi-26	D/o Sh. Pawan Kumar Goel	BHMS/13 D/U	23	24, Second Floor, East Avenue Road, East Punjabi Bagh, New Delhi-26	BHSD/4806 10.06.2014
175	Dr. Preeti Yadav RZF-21 St No.31C Sadh Nagar Part-II Palam Colony, N.Delhi-45	D/o Sh. Prakash Chandra Yadav	BHMS/13 D/U	24	RZF-21 St No.31C Sadh Nagar Part-II Palam Colony, N.Delhi-45	BHSD/4808 10.06.2014
176	Dr. Preeti Chhajer 14-Siddarth Enclave Ashram Chowk, N.Delhi-14	D/o Sh. Ummed Kr.Chhajer	BHMS/13 D/U	23	14-Siddarth Enclave Ashram Chowk, N.Delhi-14	BHSD/4810 16.06.2014
177	Dr. Pinkesh Kumar C-262, G. No.10, Gharoli Extn, Delhi-96	D/o Sh. Vijay Singh	BHMS/13 D/u	24	C-262, G. No.10, Gharoli Extn, Delhi-96	BHSD/4829 23.07.2014
178	Dr. Poonam Tanwar 94-B, Rithala (Village) Near Post Office, Delhi-110085	D/o Sh. Rohtash Singh	BHMS/13 D/U	23	94-B, Rithala (Village) Near Post Office, Delhi-110085	BHSD/4851 28.07.2014
179	Dr. Rinku S-18, Vasant Enclave, Vasant Vihar, New Delhi-57	D/o Sh. Phagu Lal	BHMS/12 GGSIPU Delhi	25	S-18, Vasant Enclave, Vasant Vihar, New Delhi-110057	BHSD/4587 21.05.2013

180	Dr. Richa Goel 1/206/42 Sadar Bazar, Delhi Cantt-10	D/o Sh. Dinesh Goel	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	I/206/42 Sadar Bazar Delhi Cantt-10	BHSD/4594 22.05.2013
181	Dr. Ruchika Mahajan A-2/149, Sector-5, Rohini, Delhi-85	D/o Sh. Moti Sagar	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	A-2/149, Sector-5, Rohini Delhi-85	BHSD/4596 22.05.2013
182	Dr. Razia Khatoon H.No78, 4th Floor, 3rd Lane Johri farm Noor Nagar Extension, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025	D/o Sh. Shamsuddin Khan	BHMS/12 D/U	24	H.No.78, 4th Floor, 3rd Lane Johri farm Noor Nagar Extension, Jamia Nagar Okhla, New Delhi-110025	BHSD/4613 23.05.2013
183	Dr. Rashi Parkash F-109,East of Kailash, New Delhi-110065	D/o Sh.Prakash.C.Jain	BHMS/12 D/U	23	F-109, East of Kailash New Delhi-110065	BHSD/4633 27.05.2013
184	Dr. Roshni Ahmed F-101, Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave-II Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-25	D/o Sh. Mohammad Ahmed	BHMS/12 D/U	23	F-101, Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave-II, Okhla Jamia Nagar N. Delhi-25	BHSD/4637 27.05.2013
185	Dr. Riya Biswas Type-3, Qtr No-82, North West, Moti Bagh New Delhi-110021	D/o Sh. Ranendra Biswas	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	Type-3, Qtr No-82, North West Moti Bagh, New Delhi-110021	BHSD/4640 27.05.2013
186	Dr. Ram Nath Pal P-2/206 Sultan Puri, New Delhi-110086	S/o Sh. Babu Ram Pal	BHMS/11 BRAU Bihar	37	P-2/206 Sultan Puri New Delhi-110086	BHSD/4690 19.07.2013
187	Dr. Ram Kumar A-780, Meet Nagar Shahdara, Delhi-94	S/o Sh. Dori Lal	BHMS/12 GGSIPU Delhi	25	A-780, Meet Nagar Shahdara Delhi-94	BHSD/4704 30.08.2013
188	Dr. Raj Kumar Saini 10A/55 Trilokpuri, Delhi -91	S/o Sh. Ram Kishore Saini	BHMS/11 BRAU. Agra	26	10A/55, Trilokpuri, Delhi -91	BHSD/4708 03.09.2013
189	Dr. Rajni Rana 404, Pocket-1, Sector- 12, Gangotri Appartments, Dwarka, New Delhi-75	D/o Sh.M.P.S. Rana	BHMS/12 D/U	25	404, Pocket-1, Sector-12, Gangotri, Appartments, Dwarka, New Delhi-75	BHSD/4723 01.10.2013
190	Dr.Rachita Tripathi F-39/A, Gali No.-02 West Vinod Nagar, Delhi	D/o Sh.Girish Chand Tripathi	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	F-39/A, Gali No.- 02 West Vinod Nagar, Delhi	BHSD/4755 26.05.2014

191	Dr. Rupali Chauhan RZ-123/313, Street No- 2, Geetanjali Park West Sagarpur, New Delhi-46	D/o Sh. Rajpal Chauhan	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	RZ-123/313, Street No-2, Geetanjali Park West Sagarpur, New Delhi-46	BHSD/4762 27.05.2014
192	Dr .Renu Verma A-2/159-B, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-96	D/o Sh. Ram Singh	BHMS/13 D/U	26	A-2/159-B, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-96	BHSD/4766 02.06.2014
193	Dr.Richa Sharera 141A, Pocket J & K, Dilshad Garden, Delhi-95	D/o Sh. H.K. Sharera	BHMS/13 D/U	23	141A, Pocket J & K, Dilshad Garden, Delhi-95	BHSD/4774 02.06.2014
194	Dr.Roshni C-7/2, Street No.-27, First Floor Mahendra Park, Near, Adarsh Nagar, Delhi-33	D/o Sh. Dharam Narain Singh	BHMS/13 D/U	25	C-7/2, Street No.- 27, First Floor Mahendra Park, Near, Adarsh Nagar, Delhi-33	BHSD/4775 03.06.2014
195	Dr. Raavi Sharma 1/9610, Behel Gali, Babarpur Road, West Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-32	D/o Sh. Radhey Shyam Sharma	BHMS/13 D/U	23	1/9610, Behel Gali, Babarpur Road, West Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-32	BHSD/4785 03.06.2014
196	Dr.Ritika Singhal 8A/62 WEA, Karol Bagh, New Delhi-05	D/o Sh. Subhash Singhal	BHMS/13 D/U	23	8A/62 WEA, Karol Bagh, New Delhi-05	BHSD/4792 04.06.2014
197	Dr.Rituparna Santra 53/65, Jind Floor, Ramjas Road, Karol Bagh, N.Delhi-05	D/o Sh. Swarup Santra	BHMS/13 D/U	24	53/65, Jind Floor, Ramjas Road, Karol Bagh, N.Delhi-05	BHSD/4809 10.06.2014
198	Dr.Rahul Kumar Singh A-1/157, Sector-6, Rohini, Delhi-85	S/o Sh. Hukam Singh	BHMS/13 D/U	24	A-1/157, Sector-6, Rohini, Delhi-85	BHSD/4814 24.06.2014
199	Dr. Revathy K. Kamal 46/2D, Sector-II, DIZ Area Gole Market, New Delhi-110001	D/o Sh. P.K. Kamal	BHMS/13 D/U	23	46/2D, Sector-II, DIZ Area Gole Market, New Delhi-110001	BHSD/4818 03.07.2014
200	Dr. Riazuddin D-18/9, Okhla Vihar, Jamia Nagar, New Delhi-25	S/o Mr. Abdul Rasheed	BHMS/11 BRAU Bihar	42	D-18/9, Okhla Vihar, Jamia Nagar, New Delhi-25	BHSD/4822 07.07.2014

201	Dr. Ranjana Vishwakarma B-49, Shivalik Malviya Nagar New Delhi-17	D/o Sh. Mohan Vishwakarma	BHMS/13 D/U	26	B-49, Shivalik Malviya Nagar New Delhi-17	BHSD/4825 18.07.2014
202	Dr. Riya Verma J-N 21 A, Iind Floor Arya Samaj Road, Uttam Nagar, N.Delhi	D/o Sh. Dhoop Singh Verma	BHMS/13 D/U	26	J-N 21 A, Iind Floor Arya Samaj Road, Uttam Nagar, N.Delhi	BHSD/4827 23.07.2014
203	Dr. Ramkesh Meena L-II/62 B DDA Flat Kalkaji, New Delhi-24	S/o Sh. Jagdish Prasad Meena	BHMS/13 D/U	26	L-II/62 B DDA Flat Kalkaji, New Delhi-24	BHSD/4831 23.07.2014
204	Dr. Rihtosh Kumar C-65, Shiv Gali, Nanakchand Basti Kotla Mubarakpur, New Delhi-03	S/o Sh. Bisheshwa Yadav	BHMS/13 D/U	30	C-65, Shiv Gali, Nanakchand Basti Kotla Mubarakpur, New Delhi-03	BHSD/4836 25.07.2014
205	Dr. Razaul Quasmi E-22, Okhla Vihar, Jamia Nagar New Delhi-110025	S/o Mohd. Hashim	BHMS/13 D/U	25	E-22, Okhla Vihar, Jamia Nagar New Delhi-110025	BHSD/4838 25.07.2014
206	Dr. Rohit Jain 162 & 163, plot No.-9, Ist Floor Vardhman Plaza-3, Pitampura, Delhi-110034	S/o Sh. S. P. Jain	BHMS/98 Barkatullah.Un Bhopal	41	162 & 163, plot No.-9, Ist Floor Vardhman Plaza-3, Pitampura Delhi-110034	BHSD/4854 28.07.2014
207	Dr. Rakesh Thakkar Flat No.-121, Apnaniwas, Sector-1 Pocket-2, Dwarka, New Delhi-75	S/o Sh. Ramanbhai Thakkar	BHMS/03 Vikram. Un Ujjain	50	Flat No.-121, Apnaniwas, Sector-1 Pocket-2, Dwarka, New delhi-75	BHSD/4857 28.07.2014
208	Dr. Sanjay Kumar Sharma A-85 E, Dilshad Colony, Delhi-110095	S/o Sh.Gaya Prasad Sharma	BHMS/10 BRAU Bihar	34	A-85 E, Dilshad Colony, New Delhi-110095	BHSD/4572 01.04.2013
209	Dr. Sakshi Talwar D-3/4 Rana Pratap Bagh, Delhi-110007	D/o Sh. Amarjeet Talwar	BHMS/10 DNU. Rohtak	24	D-3/4 Rana Pratap Bagh Delhi-7	BHSD/4575 04.04.2013
210	Dr. Sonia Sharma H.No-304 D, Bazar Panna V.P.O.Karala Delhi-81	D/o Sh. Radhey Shyam	BHMS/12 GGSPU Delhi	24	H.No-304 D, Bazar Panna V.P.O Karala, Delhi-110081	BHSD/4588 21.05.2013
211	Dr. Sumit Singh Rawat A-176, Moti Bagh-1, New Delhi-110021	S/o Sh. Manohar Singh Rawat	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	A-176, Moti Bagh-1 New Delhi-110021	BHSD/4589 21.05.2013

212	Dr. Shikha Bisht 1-D, Pocket-A Dilshad Garden, Delhi-95	D/o Sh. Birendra Singh Bisht	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	1-D, Pocket-A Dilshad Garden New Delhi-95	BHSD/4592 22.05.2013
213	Dr. Shailey Gokhale GH-5 D7, Flat No-1144, Paschim Vihar New Delhi-87	D/o Sh. Ramesh Gokhale	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	GH-5 D7, Flat No-1144, Paschim Vihar, New Delhi-110087	BHSD/4605 22.05.2013
214	Dr. Sangeeta Rani R-207, A, Vani Vihar Uttam Nagar New Delhi-110059	D/o Sh. Dori Lal	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	R-207, A, Vani Vihar Uttam Nagar, New Delhi-110059	BHSD/4606 22.05.2013
215	Dr. Sukriti Gambhir 108-LIG Flats, Hastsal, New Delhi-110059	D/o Sh. Subodh Gambhir	BHMS/12 D/U	23	108-LIG Flats, Hastsal New Delhi-110059	BHSD/4616 23.05.2013
216	Dr. Sunil Kumar Meena OD-2 Radio Colony, Kingsway Camp Delhi-9	S/o Sh. Hari Singh Meena	BHMS/12 GGSIPU Delhi	31	OD-2 Radio Colony, Kingsway Camp Delhi-9	BHSD/4619 23.05.2013
217	Dr. Shashank Bansal H-2, Vijay Chowk Laxmi Nagar, Delhi-92	S/o Dr. Ravinder Kumar Gupta	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	H-2, Vijay Chowk Laxmi Nagar Delhi-110092	BHSD/4622 24.05.2013
218	Dr. Surbhi I686, Delhi Admn, Flats Type-4, Gulabi Bagh, Delhi-07	D/o Sh. Nawal Gupta	BHMS/12 D/U	23	I686, Delhi Admn, Flats Type-4 Gulabi Bagh, Delhi-07	BHSD/4627 24.05.2013
219	Dr. Shilpa H.No-390, Chilla Village P.O, Patparganj Ganj, Delhi-91	D/o Sh. Sushil Kumar	BHMS/12 D/U	22	H.No-390, Chilla Village P.O Patparganj, Delhi-91	BHSD/4630 24.05.2013
220	Dr. Sakshi Gupta H-80, Shakar Pur, Delhi-110092	D/o Sh. Rajender Kumar Gupta	BHMS/12 D/U	23	H-80, Shakar Pur Delhi-110092	BHSD/4642 31.05.2013
221	Dr. Sonal H.No-14, Near Devi Mandir, Rithala Village, Delhi-110085	D/o Sh. Gulab Singh	BHMS/12 D/U	23	H.No-14, Near Devi Mandir Rithala Village, Delhi-110085	BHSD/4646 03.06.2013
222	Dr. Sarita Gola 185, Chattarpur Village, New Delhi	D/o Sh. Moolchand Gola	BHMS/12 D/U	23	185, Chattarpur Village New Delhi	BHSD/4649 03.06.2013

223	Dr. Sandhya Flat No-126, Poeket-B- 9, Sector -3, Rohini Delhi-85	D/o Sh. Rajbir Singh	BHMS/12 D/U	24	Flat No-126, Pocket-B-9, Sector-3, Rohini, Delhi-110085	BHSD/4656 04.06.2013
224	Dr. Srishti Ghildiyal 852, Type-4 laxmi Bai Nagar, New Delhi-23	D/o Sh. D.C Ghildiyal	BHMS/12 D/U	23	852, Type-4 laxmi Bai Nagar New Delhi-110023	BHSD/4665 04.06.2013
225	Dr. Siddharth B-4/124 Yamuna Vihar, Delhi-110053	S/o Sh. I. D. Singh	BHMS/12 GGSIPU Delhi	25	B-4/124 Yamuna Vihar Delhi-110053	BHSD/4668 04.06.2013
226	Dr. Shashi Kumar H. No-6 Munirka Village, New Delhi- 110067	D/o Sh. Rajender Kumar	BHMS/12 D/U	23	H. No-6 Munirka Village New Delhi-110067	BHSD/4672 10.06.2013
227	Dr. Sanjeev Kumar B-6/1 Safdarjang Enclave, New Delhi	S/o Sh. Raj Kumar Sharma	BHMS/08 JRN RV. UN	26	Gopal Homoeo Healing Centre B-6/1 Safdarjang Enclave New Delhi	BHSD/4678 13.06.2013
228	Dr. Sakshi Sharma B-Block ,B-14, S-I, Dilsahd Garden Delhi-110095	D/o Sh. Chandra Prakash Sharma	BHMS/12 D/U	23	B-14, S.I,B-Block Dilsahd Garden, Delhi- 110095	BHSD/4679 17.06.2013
229	Dr. Sarita Kushwaha H.No-25 Gali no-2 Part- 3 Meethapur Extn Badarpur, New Delhi- 110044	D/o Sh.Raja Ram Kushwaha	BHMS/12 BRAU Bihar	36	H.No-25 Gali no-2 Part-3 Meetha pur Extn Badarpur New Delhi-110044	BHSD/4682 20.06.2013
230	Dr. Sheafali kapoor C-25/B Kalkaji, New Delhi-110019	D/o Sh. Prem Sharan Kapoor	BHMS/12 D/U	23	C-25/B Kalkaji New Delhi-110019	BHSD/4691 22.07.2013
231	Dr. Sahiba Kaur Syal Pockei G-6 House No-6 and 7 Sector-2 Rohini, New Delhi-85	D/o Sh. Harmohan Pal Singh Syal	BHMS/12 D/U	24	Pocket G-6 House No-6 and 7 Sector-2 Rohini, New Delhi-85	BHSD/4693 01.08.2013
232	Dr. Sumit Kumar A-8/629 East Gokul Pur, Loni Road Delhi-110094	S/o Sh. Sohan Pal	BHMS/12 D/U	27	A-8/629 East Gokul Pur Loni Road, Delhi- 110094	BHSD/4694 01.08.2013
233	Dr.Sarita Soni 94, Shakarpur, Near Sanjay Park Delhi-110092	D/o Sh.Tara Chand	BHMS/12 D/U	23	94, Shakarpur, Near Sanjay Park, Delhi-110092	BHSD/4695 01.08.2013
234	Dr.Sanjeev Kumar 434 A/7 Meetha pur Extn-2 Near MCD	S/o Sh.Mukhtiyar Singh	BHMS/12 D/U	24	434 A/7 Meetha pur Extn-2 Near MCD School	BHSD/4697 01.08.2013

	School Badarpur, New Delhi-110044				Badarpur New Delhi-110044
235	Dr. Satinder Kaur C-545 Rishi Nagar Shakur Basti New Delhi-110034	D/o Sh.Balbir Singh	BHMS/12 D/U	23	C-545 Rishi Nagar Shakur Basti, New Delhi- 110034
236	Dr. Sangeeta Singh 69A, Gali No.4, Kundan Nagar Laxmi Nagar, Delhi-92	D/o sh. Begraj Singh	BHMS/98 Cal Un.	38	69A, Gali No.4, Kundan Nagar, Laxmi Nagar Delhi-92
237	Dr. Sarve Priya 24/92-A, Tilak Nagar, New Delhi-110018	D/o Sh. Ved Parkash Malik	BHMS/09 Baba Farid Un.	24	24/92-A, Tilak Nagar New Delhi-110018
238	Dr. Sakshi Jain C-9/135, Yamuna Vihar, Delhi-53	D/o Sh. Ajay Jain	BHMS/12 BVDU Pune	25	C-9/135, Yamuna Vihar Delhi-53
239	Dr. Sandeep Kumar H.No.-170, Gali No.-1, Sanjay Colony Narela, Delhi-40	S/o Sh. Aman Singh	BHMS/12 BRAU Agra	29	H.No.-170, Gali No.-1, Sanjay Colony, Narela, Delhi-40
240	Dr. Shrey Bharal 115, Masjid Moth, New Delhi-110049	S/o Sh. Dev Raj	BHMS/12 BRAU. Agra	24	115, Masjid Moth, New Delhi - 110049
241	Dr. Samiksha Sharma D-42 M.C.D Staff Colony, D-Block, New Usmanpur, Delhi- 53	D/o Sh. M.P. Sharma	BHMS/12 D/U	23	D-42 M.C.D Staff Colony, D-Block, New Usmanpur, Delhi - 53
242	Dr. Shilpi Gautam H. No-14B, Street No-2, Bhola Nath Nagar Shahdara, Delhi -32	D/o Sh.Sunder Pal Singh	BHMS/12 D/U	26	H. No-14B, Street No-2, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi -32
243	Dr. Sweta Tyagi H. No-22 Gali No-2, Bhagwan Park, Jharoda Mazra Burari, North Delhi-110084	D/o Sh. Anil Kumar Tyagi	BHMS/11 GRAU Punjab	23	H. No-22 Gali No- 2, Bhagwan Park Jharoda Mazra Burari North Delhi-10084
244	Dr. Sangita Jaiswal House No-294 Ground Floor Parmanand Colony, Delhi-09	D/o Sh. Munshi Prasad Jaiswal	BHMS/11 Kumaun. Un. Nainital	30	House No-294 Ground Floor Parmanand Colony, Delhi-09
245	Dr. Shivani Datal H. No-366-A, Village	D/o Sh. Kali Charan Singh	BHMS/05 Punjab/Univ	31	H. No-366-A, Village Munirka,

	Munirka, P.O. JNU, New Delhi-67			P.O. JNU, New Delhi-67
246	Dr. Swati Bassi 85-33, Street N0.4 Shastri Park, Krishna Nagar, Delhi-51	D/o Sh. Ramesh Chander Bassi	BHMS/07 JRNU Raj	29 85-33, Street N0.4 Shastri Park, Krishna Nagar, Delhi-51 BHSD/4739 21.04.2014
247	Dr. Steffi S.Sam C-7/141 SDA Hauz Khas, New Delhi-16	D/o Sh. Sam Varghese	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23 C-7/141 SDA Hauz Khas, New Delhi-16 BHSD/4742 23.05.2014
248	Dr. Swati Goel B-25/2, IInd Floor, Shubham Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-63	D/o Sh. R.K. Goel	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23 B-25/2, IInd Floor, Shubham Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-63 BHSD/4750 23.05.2014
249	Dr. Sonia 16/551 H Bapa Nagar, Hardhyan Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-05	D/o Sh. Ashok Kumar	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24 16/551 H Bapa Nagar, Hardhyan Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-05 BHSD/4753 26.05.2014
250	Dr. Sonia Meena Flat No.635, DA-Block, SFS Flats Shalimar Bagh, Delhi-88	D/o Sh. Lakhpat Ram Meena	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24 Flat No.635, DA- Block, SFS Flats Shalimar Bagh, Delhi-88 BHSD/4754 26.05.2014
251	Dr. Sushma Staff Qtr No-15/7, Air force Station Naraina Brar Square, Delhi Cantt-110010	D/o Sh. H.S. Negi	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24 Staff Qtr No-15/7, Air force Station Naraina Brar Square, Delhi Cantt- 110010 BHSD/4759 26.05.2014
252	Dr. Swati Bhardwaj 498, Haveli Haider Quli, Chandni Chowk Delhi-110006	D/o Sh. V.N. Rakesh Bhardwaj	BHMS/13 D/U	24 498, Haveli Haider Quli, Chandni Chowk, Delhi- 110006 BHSD/4768 02.06.2014
253	Dr. Sweta Mishra 13/6/2, Vayusenabad, Swagat Appartment Flat No-3, First Floor, Tigri, Tughlakabad New Delhi-62	D/o Sh. Shailendra Kumar Mishra	BHMS/13 D/U	22 13/6/2, Vayusenabad, Swagat Appartment Flat No-3, First Floor, Tigri, Tughlakabad, New Delhi-62 BHSD/4769 02.06.2014
254	Dr. Sumedha Mishra 13-B, DDA Janta Flats, Manglapuri Palam Colony, New Delhi-110045	D/o Late Sh. Sudhakar Mishra	BHMS/13 D/U	28 13-B, DDA Janta Flats Manglapuri, Palam Colony, New Delhi-45 BHSD/4771 02.06.2014

255	Dr. Swati Pandey F-35/1, Flat No.B2, Street No-16D, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-45	D/o Sh. Radhey Shyam Pandey	BHMS/13 D/U	23	F-35/1, Flat No.B2, Street No-16D, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-45	BHSD/4773 02.06.2014
256	Dr. Sonika Gupta B-61 Rama Park, Near Dwarka More Metro Station, Delhi	D/o Sh. G.D. Gupta	BHMS/13 D/U	23	B-61 Rama Park, Near Dwarka More Metro Station, Delhi	BHSD/4779 03.06.2014
257	Dr. Sneha Nagpal 2022, Park Royal Apts, Plot-10A, Sector-9 Dwarka, New Delhi-75	D/o Sh. Deepak Nagpal	BHMS/13 D/U	23	2022, Park Royal Apts, Plot-10A, Sector-9, Dwarka, New Delhi-75	BHSD/4780 03.06.2014
258	Dr. Sandhya C-431 Albert Square Gole Market, New Delhi-110001	D/o Sh. Mahesh Ram	BHMS/13 D/U	23	C-431 Albert Square Gole Market, New Delhi-01	BHSD/4782 03.06.2014
259	Dr. Sherlyn Elizabeth Paul J-141, S.F, Second Floor, Saket New Delhi-17	D/o Sh. Shaji Paul	BHMS/13 D/U	23	J-141, S.F, Second Floor, Saket New Delhi- 17	BHSD/4794 04.06.2014
260	Dr. Saumya Avinashi J-12/79 Rajouri Garden, New Delhi-27	D/o Dr. Ashit Avinashi	BHMS/13 D/U	24	J-12/79 Rajouri Garden, New Delhi-27	BHSD/4799 05.06.2014
261	Dr. Shaikh Farida Nasir Ahmed C-6/307 Yamuna Vihar, Delhi-110053	D/o Sh. Nisar Ahmed Shaikh	DHMS/89 MP.Council	47	C-6/307 Yamuna Vihar, Delhi-110053	BHSD/4812 17.06.2014
262	Dr. Shailesh Kumar NW-23B, Vishnu Garden, New Delhi-18	S/o Sh. Vijay Kumar Gupta	BHMS/12 Durgavati.Un Jabalpur	29	NW-23B, Vishnu Garden, New Delhi-18	BHSD/4815 25.06.2014
263	Dr. Shikha Gandhi Quarter No. F-5, Road No.2 Andrews Ganj, New Delhi-49	D/o Sh. Subhash Gandhi	BHMS/13 D/U	23	Quarter No. F-5, Road No.2 Andrews Ganj, New Delhi-49	BHSD/4817 02.07.2014
264	Dr. Saleha Mohsin D-102/1, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, New Delhi-25	D/o Mohd Mohsin	BHMS/13 D/U	23	D-102/1, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, New Delhi-25	BHSD/4819 03.07.2014
265	Dr. Syeda Hadia Nizami 32 Hazrat Nizamuddin	D/o Sh. Syed Salim Nizami	BHMS/13 D/U	23	32 Hazrat Nizamuddin West	BHSD/4820 03.07.2014

	West New Delhi-110013				New Delhi-110013	
266	Dr. Shalini Malhotra E-43 Lajpat Nagar Ind, N.Delhi-24	D/o Sh. R.K. Malhotra	BHMS/13 D/U	24	As in Column No. 2 E-43 Lajpat Nagar Ind, N.Delhi-24	BHSD/4834 23.07.2014
267	Dr. Saumya Sharma F-156/3, Road No.-3, Andrews Ganj, New Delhi- 110049	D/o Sh. A. K. Sharma	BHMS/13 D/U	23	F-156/3, Road No. 3, Andrews Ganj, New Delhi- 110049	BHSD/4839 28.07.2014
268	Dr. Swati H.No.-193, D-12, Sector-8, Rohini, Delhi- 85	D/o. Sh. Shyam Sunder	BHMS/13 D/U	23	H.No.-193, D-12, Sector-8 Rohini, Delhi-85	BHSD/4841 28.07.2014
269	Dr. Seema Jaiswal 55-F, Pocket-III, Mayur Vihar Ph-1 Delhi-91	D/o Sh. Tarak Nath Gupta	BHMS/02 Calcutta. Un Calcutta	36	55-F, Pocket-III, Mayur Vihar Ph-1 Delhi-91	BHSD/4855 28.07.2014
270	Dr. Shilpa Dhall 394, Delhi Gate Bazar Daryaganj Delhi-10002	D/o Sh. Devender Kumar Dhall	BHMS/07 JRNU Raj	29	394, Delhi Gate Bazar Daryaganj Delhi-10002	BHSD/4856 28.07.2014
271	Dr. Shashi Prabha Rai 8A Plot No.-8, Bharat Garden, Gali No. 1 Matiala Road, Uttam Nagar, N.Delhi-59	D/o Sh. Angad Rai	BHMS/12 BRA.Un Bihar	34	8A Plot No.-8, Bharat Garden Gali No.-1, Matiala Road, Uttam Nagar, New Delhi- 59	BHSD/4858 30.07.2014
272	Dr. Shikha Upadhyay P53B Arjangular, Air Force Station Ayanagar South Delhi, N.Delhi-47	D/o Sh. Syam Sunder Upadhyay	BHMS/13 D/U	24	P53B Arjangular, Air Force Station Ayanagar South Delhi, N.Delhi-47	BHSD/4862 30.07.2014
273	Dr. Tarun Bohra Flat No-29, Neel Kamal Appartment Vikas Puri, New Delhi- 18	S/o Late Sh. Himmat Singh Bohra	BHMS/12 GGSIPU Delhi	27	Flat No-29, Neel Kamal Appartment , Vikas Puri New Delhi-18	BHSD/4580 17.05.2013
274	Dr. Tanvi Kharbanda C-401, Palam Apts, Sec- 5, Plot-7 Dwarka, N. Delhi-75	D/o Sh. Anil Kumar Kharbanda	BHMS/12 GGSIPU Delhi	24	C-401, Palam Apts, Sec-5, Plot-7, Dwarka, N. Delhi-75	BHSD/4584 21.05.2013
275	Dr. Tejaswini Vedula F-320, Opp Post Office, NanakPura New Delhi-21	D/o Sh. Viswanadha Sharma	BHMS/12 D/U	23	F-320, Opp Post Office Nanak Pura, New Delhi- 110021	BHSD/4631 24.05.2013

276	Dr. Tanya Aggarwal X/3569,Shanti Mohalla Street No-4,Raghubar Pura No-2, Gandhi Nagar, Delhi-31	D/o Sh. Anil Aggarwal	BHMS/12 D/U	23	X/3569, Shanti Mohalla Street No-4, Raghubar Pura No-2, Gandhi Nagar, Delhi-31	BHSD/4662 04.06.2013
277	Dr. Uma Shankar Kumar C-23/21, Shahbad Dairy, Delhi-42	S/o Sh. Ramjinish Sahani	BHMS/11 BRAU Bihar	38	As in Column No. 2 C-23/21, Shahbad Dairy,Delhi-42	BHSD/4823 07.07.2014
278	Dr. Vivek Pahwa A-248, Sudershan Park, Near Moti Nagar New Delhi-110015	S/o Sh. V.K.Pahwa	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	A-248, Sudershan Park, Near Moti Nagar, New Delhi-110015	BHSD/4590 21.05.2013
279	Dr. Vibhu Malhotra D-2A/71-A Janak Puri, New Delhi-110058	S/o Sh. Vijay Kumar Malhotra	BHMS/12 D/U	23	D-2A/71-A Janak Puri New Delhi-110058	BHSD/4608 22.05.2013
280	Dr. Vasudha L-2 Malviya Nagar, New Delhi-110017	D/o Sh. Girish Bharihole	BHMS/12 D/U	23	L-2 Malviya Nagar New Delhi-110017	BHSD/4628 24.05.2013
281	Dr.Varsha Sewal 56/4 Mehrauli, New Delhi-110030	D/o Sh. Chote Lal Sewal	BHMS/12 D/U	24	56/4 Mehrauli, New Delhi-110030	BHSD/4636 27.05.2013
282	Dr.Vaishali 234,Gangotri Appts, Sector-12, Pocket-1 Dwarka, New Delhi-78	D/o Sh.Sushil kumar Upreti	BHMS/12 GGSIPU Delhi	23	234, Ganaotri Appts, Sector-12 Pocket-01, Dwarka, N. Delhi- 78	BHSD/4639 27.05.2013
283	Dr. Varsha 152/2, Tunda Nagar Joharipur, Delhi-94	D/o Sh. Ram Kumar	BHMS/12 D/U	24	152/2, Tunda Nagar Joharipur Delhi-94	BHSD/4655 04.06.2013
284	Dr. Versha Janartha 93-G, Pocket-A/2, Mayur Vihar Phase-3 New Delhi-96	D/o Sh. Radesh Kumar Janartha	BHMS/12 D/U	26	93-G, Pocket-A/2, Mayur Vihar Phase-3, New Delhi-96	BHSD/4661 04.06.2013
285	Dr. Vrinda Chaturvedi B-51/F-2, B-Block Dilshad Garden Delhi-110095	D/o Sh. Mukesh Chaturvedi	BHMS/12 D/U	23	B-51/F-2, B-Block Dilshad Garden , Delhi-- 110095	BHSD/4669 06.06.2013
286	Dr. Vishant Rana H.No-592 V.& P.O Bakhtawar pur Gali Dalmill, Delhi-36	S/o Sh.Chaman Singh Rana	BHMS/12 D/U	23	H.No-592 V.& P.O Bakhtawar pur, Gali Dalmill, Delhi-36	BHSD/4677 12.08.2013

287	Dr. Vivek Swaroop Sant Nirankari Satsang Bhawan, M-Block Lajpat Nagar-2, New Delhi-110024	S/o Dr.Vijay Kumar	BHMS/12 West Bengal Un	25	Sant Nirankari Satsang Bhawan M-Block Lajpat Nagar-2 New Delhi-110024	BHSD/4683 01.07.2013
288	Dr. Vandana Gangwar C-104, Palam Appartment, Bijwasan, N.Delhi-61	D/o Sh.J.C. Gangwar	BHMS/13 D/U	25	C-104, Palam Appartment, Bijwasan, N.Delhi- 61	BHSD/4772 02.06.2014
289	Dr. Vandana Rana Pocket B-4 Flat No-26-H, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-96	D/o Sh.Vikram Singh Rana	BHMS/13 D/U	23	Pocket B-4 Flat No-26-H, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-96	BHSD/4783 03.06.2014
290	Dr. Yashi Mittal 1/7615, East Gorakh Park, Nehru Marg Street No-6, Shahdara, Delhi-110032	D/o Sh. Yogesh Kumar Mittal	BHMS/12 D/U	23	1/7615, East Gorakh Park Nehru Marg Street No-6, Shahdara, Delhi- 110032	BHSD/4621 23.05.2013
291	Dr. Yasmeen V-57 Gali No.24 Vijay Park,Maujpur, Delhi-53	D/o Sh. Shabbir Ahmad	BHMS/13 BRAU Agra	23	V-57 Gali No.24 Vijay Park, Maujpur, Delhi-53	BHSD/4737 10.03.2014

G. S. RAWAT, Registrar, Board of Homoeopathic System of Medicine, GNCT of Delhi